



**Directorate of Land Records & Survey**  
**Department of Revenue & Land Reforms**  
**Government of Bihar**

# MAGIC

**MAP AND GEOGRAPHIC  
INFORMATION COMPILATION**



The screenshot shows a map of land parcels in a rural area, likely Jharkhand, with various plots numbered (e.g., 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311). To the left, there is a search interface with dropdown menus for State (Jharkhand), District (01 Gumla), Block (01 गुम्ला-01), Gram Panchayat (0001 वरकनी), and Plot No. A green button labeled 'Get Info' is visible. The background has a gradient from purple at the top to orange at the bottom.

## प्रस्तावना

प्रवर्तमान विशेष सर्वेक्षण को तार्किक परिणति तक पहुँचाने के लिए तथा आँकड़ों के भविष्योपयोग की दृष्टि से प्रस्तुत संकलन/मार्गदर्शिका की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसे समय समय पर निदेशालय स्तर से निर्गत यथावश्यक दिशा निर्देश की एक कड़ी के रूप में समझा जा सकता है।

आँकड़ों के बहुत भविष्योपयोग को देखते हुए विशेषकर मानचित्र से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टियों में सावधानी की आवश्यकता है। अभी जब सर्वेक्षण कर्मी क्षेत्र में स्थल—सत्यापन, किस्तवार, खानापुरी का कार्य कर रहे हैं तो विशाल मात्रा में आँकड़ों का संकलन हो रहा है। पूर्व के भू—सर्वेक्षण से अगर इस सर्वेक्षण की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट है कि विशेष सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। समस्त आँकड़ों को कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन एवं स्वचालित व्यवस्था के दायरे में लाया जाना है। अगर आँकड़े की प्रकृति शुद्ध नहीं होगी तो बेमेल आँकड़ों से भविष्योपयोग की अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन होगा। विशेष सर्वेक्षण की चरणबद्ध प्रक्रियाओं का मानवीय प्राविधि की जगह आधुनिक तकनीक पर आधारित होने के कारण आँकड़ों के निर्माण के समय पर उसे शुद्ध करना, बदलना आसान होता है। एक बार आँकड़ों के कम्प्यूटरीकृत संधारण होने के बाद आँकड़ों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वे सीमित एक्सेस और प्राधिकार आधारित उपयोग का हिस्सा होते हैं। इस आलोक में क्षेत्र स्तर पर मानचित्र संबंधी प्रविष्टियों में बरती जाने वाली सावधानियों एवं आँकड़ों की तार्किक संगति को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य में इस संकलन/मार्गदर्शिका से सहयोग मिल सके ऐसा प्रयास किया गया है।

अंत में मै आभार प्रकट करना चाहूँगा जी0आई0एस. सलाहकार, श्री चंदन कुमार एवं आई0टी0 सेल, प्रभारी, सुश्री सुरभि सिंह का, जिनके निरंतर परिश्रम से यह प्रयास एक मूर्त रूप ले सका। इस कार्य में सहयोग हेतु तकनीकी कोषांग के सदस्य और श्री मनोज कुमार झा, उप—सचिव एवं श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक सभी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कामना करता हूँ कि यह संकलन/मार्गदर्शिका क्षेत्र स्तर पर कार्यरत सर्वेक्षण कर्मियों की GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) के बारे में समझ को और बेहतर बनाएगी तथा GIS संबंधी मानचित्र आधारित प्रविष्टियों के संबंध में तार्किक स्पष्टता प्राप्त करने में उपयोगी होगी।

(जय सिंह)  
निदेशक,  
भू—अभिलेख एवं परिमाप  
बिहार पटना।

## अनुक्रमणिका

क्र०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	विशेष सर्वेक्षण में खेसरा—मानचित्र—निर्माण – एक संदर्भ	01–06
1.1	कंट्रोल प्वाइंट के वितरण का घनत्व	06–16
1.2	किस्तवार पूर्व मानचित्र में प्रदर्शित राजस्व ग्राम का स्थल सत्यापन	16–17
1.3	खेसरों की नम्बरिंग और भौतिक विवरणी का संकलन	18–19
1.4	राजस्व मानचित्रों में संकेत चिह्नों का समावेशन	19–20
1.5	D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की भौतिक शुद्धता	20–21
1.6	D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की तर्किक शुद्धता	21
2.	विशेष सर्वेक्षण में GIS का महत्व	22
2.1	<b>GIS - Geographic Information System</b>	22–25
2.2	<b>Attribute Data</b>	25–26
2.3	<b>GIS Layer</b> निर्माण से संबंधित प्रविष्टियाँ एवं क्षेत्र संबंधी कार्य	26–37
2.4	ऑकड़ों की संगति ( <b>Sympathy of Data</b> )	37
2.5	<b>14 Digit Parcel Unique ID</b>	38–41
3.	भू—सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form- 6 की इंट्री का मैन्युअल	42–44
3.1	धारण के प्रकार (Holding Type)	45
3.2	नवैयत (स्वामित्व के आधार)	45
3.3	भूमि का प्रकार / वर्गीकरण	46
3.4	बिहार की जातियाँ	47–74
3.5	भू—सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form- 6 की इंट्री का राजस्व ग्रामवार चेकलिस्ट	75

## 1. विशेष सर्वेक्षण में खेसरा—मानचित्र—निर्माण – एक संदर्भ

“विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम बिहार” के संदर्भ में यह जानना प्रासंगिक है कि किन उद्देश्यों का ध्यान में रखकर यह सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसका अंतिम फलाफल क्या होगा ? विभिन्न हितधारकों के जो उत्तरदायित्व हैं वह फलाफल को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह जानना आवश्यक है। अगर फलाफल उत्तरदायित्व निर्वहन से प्रभावित हो रहा है तो ऐसी कौन—कौन सी सावधानियाँ हैं, जिसे अपनाने पर वांछित फलाफल की प्राप्ति के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है। इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य उन सावधानियों से अवगत होना है, जो भविष्य में हमारे कार्य के पूर्ण होने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से बचा ले।


सर्वप्रथम “भू—सर्वेक्षण” एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है और यह “विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम” भी इससे अलग नहीं है। उपलब्ध भू—अभिलेख उपलब्ध मानचित्र तथा वर्तमान जमीनी हकीकत की आपसी संगति बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, इसलिए समस्त बिहार का भू—सर्वेक्षण किया जाना हमारी आवश्यकता हो गई। दूसरा इस संगति के खत्म होने का मूल कारण था समय के साथ अधिकार—अभिलेख और मानचित्रों अद्यतीकरण न हो पाना, इसलिए भविष्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि स्वयमेव अद्यतीकरण की प्रक्रिया लागू रहे और अधिकार—अभिलेख, मानचित्र तथा जमीनी वास्तविकता ये तीनों सदैव संगति में रहें अर्थात्

1. अधिकार—अभिलेख और खेसरा मानचित्र सतत अद्यतन रहें


तथा

2. वर्तमान की वास्तविकताओं को प्रतिबिंब करें।

और यही उद्देश्य DILRMP (Digital India Land Record Modernization Programme) का भी है जो कि 100 प्रतिशत फॉडिंग वाली भारत सरकार के सेंट्रल सेक्टर की योजना है।



सर्वप्रथम बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में कई हितधारक हैं और यह तकनीकी रूप से एक जटिल कार्यक्रम है। अंतिम फलाफल कई स्तर पर किए गए कार्यों की गुणवत्ता से सीधे प्रभावित होता है।



सरकार, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी और रैयत इस कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले और इस कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले तीन पक्ष हैं। इस सर्वेक्षण एजेंसी की भूमिका मानचित्र निर्माण एवं तकनीकी सहयोग की है, जो अस्थायी है अर्थात् जब तक यह कार्यक्रम प्रवर्त्तन में है तभी तक उनकी उपस्थिति है, इसके बाद सरकार और रैयत का ही संबंध स्थायी रूप से बचा रहेगा जो लोक सेवाओं की उपलब्धता पर आधारित होगा।

यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिविर स्तर पर किए गए कार्य की गुणवत्ता और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर पर निर्मित मानचित्र की गुणवत्ता हमारे भविष्य की लोक सेवाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है ? मानचित्र का निर्माण और अधिकार—अभिलेखों के साथ उसका समेकन वस्तुतः तकनीकी रूप से एक जटिल प्रक्रिया है। राज्य स्तरीय कार्य की विशालता को दृष्टिगत रखते हुए स्वाभाविक है कि तकनीकी रूप से कार्यबलों का पर्यवेक्षण उपलब्ध हो। इस बारिकी को समझने के लिए मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया से अवगत होना आवश्यक है तथा कहाँ—कहाँ सावधानी बरतनी है ? उसे जानना भी आवश्यक है। मानचित्र को एक कानूनी अभिलेख के रूप में मान्यता प्राप्त है, और परंपरागत रूप से यदि अधिकार—अभिलेख और मानचित्र में अंतर्विरोध पाया जाता है तो मानचित्र को प्रभावी माना जाता है। इसलिए सबसे पहले यह बात स्वीकारना आवश्यक है कि “मानचित्र की शुद्धता हमारे अंतिम फलाफल को सीधे प्रभावित करता है।” दूसरा “मानचित्र की शुद्धता हमारे कार्य प्रवाह को सीधे विलंबित या त्वरित करने की क्षमता रखता है। इसका सीधा संबंध प्रपत्र—8 में ऐयतों द्वारा उठायी जानेवाली आपत्तियों की संख्या से है।”

“ भविष्य में Decision Support System के रूप में GIS का हम क्या उपयोग कर पायेंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने मानचित्र में किन—किन अवयवों को पिरोया है ? ”

अर्थात् मानचित्र निर्माण के स्तर पर शुद्धता के परिरक्षण हेतु बरती जानेवाली सावधानियाँ बहुत आवश्यक हैं और उन बिन्दुओं को जानना भी आवश्यक है, जिसके कारण मानचित्र में त्रुटि का समावेशन हो जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा तीन तरह की प्राविधि में एक के चयन की स्वतंत्रता राज्यों को दी गई है। तीनों ही प्राविधियों में स्थल सत्यापन एक अनिवार्य अंग है अर्थात् मानचित्र स्थलीय ज्यामिति विशिष्टताओं को संपूर्णता में अभिव्यक्त कर रहा है या नहीं मानचित्र इसी जमीनी यथार्थ का एक आनुपातिक पुनर्निर्माण है। यह पुर्णनिर्माण इतना सटीक होना चाहिए कि हम बिना क्षेत्र में गए मानचित्र के आधार पर किसी भी खेत या खेसरे का शुद्ध—शुद्ध क्षेत्रफल निकाल सके अर्थात् स्थलीय वास्तविकताओं को मानचित्र पर प्रदर्शित करने में शुद्धता का क्या स्तर अपनाया गया है ? उसी के लिए स्थल सत्यापन के विकल्प को अनिवार्य बनाया गया है। DILRMP के तहत मानचित्र की शुद्धता का अपना Mandate है जो कृषि क्षेत्रों में 20 सेमी एवं आबादी वाले क्षेत्रों में 10 सेमी<sup>10</sup> है।

मानचित्र की वांछित शुद्धता को बनाए रखने के लिए पूरे कार्य—प्रवाह में विभिन्न चरणों पर गुणवत्ता नियंत्रण को अपनाए जाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता नियंत्रण के कई विकल्प पूर्व प्रावधानित हैं, जिनके अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

गुणवत्ता नियंत्रण एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह One time process नहीं हो सकता है। यह एक Continuous Struggle है। मानचित्र निर्माण के संदर्भ में जिन—जिन बिन्दुओं पर त्रुटि के अंतर्वेशित होने का डर होता है, वहाँ—वहाँ पर त्रुटि निवारण हेतु संबंधित प्रक्रियाओं को कार्य—प्रवाह का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक होता है। मानचित्र निर्माण के कार्य का बाह्यस्त्रीतीकरण किया गया है, इसे निविदा द्वारा चयनित हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सौंपा गया है। पूरे बिहार के जिलों को तीन हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के मध्य वितरित किया गया है। इन हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित विकल्प “हवाई फोटोग्राफी द्वारा मानचित्र निर्माण तथा ETS/DGPS द्वारा स्थल सत्यापन” के माध्यम से मानचित्र निर्मित किया जा रहा है। इस तकनीक को बिहार के परिवेश की अनुकूलता के कारण अपनाया गया है। इस तकनीक में मानचित्र निर्माण की विधा को “फोटोग्रामेट्री” के नाम से जाना जाता है। फोटोग्रामेट्री के अंतर्गत त्रुटियों को अंतर्वेशन भी कई स्तरों पर संभव है। कंट्रोल प्लाइंट के मोन्टेशन, एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग, फोटोग्राफ का अधिग्रहण, फोटोग्राफ की प्रोसेसिंग, ऑर्थोफोटोग्राफ और टाईल्स का निर्माण, ऑर्थोफोटोग्राफ्स के डिजिटाईजेशन से राजस्व ग्रामों के मानचित्र निर्माण तक की सारी प्रक्रियाएँ एजेंसी के द्वारा संपादित की जाती हैं। उनके कार्य लैब आधारित एवं सॉफ्टवेयर पर आधारित एवं कम्प्यूटरीकृत हैं, जिसमें हस्तक्षेप व्यावहारिक भी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान त्रुटियों के रह जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि पारंपरिक पद्धति में भू सतह के ज्यामितिक विन्यास को प्लेन टेबल पर आरेखन (Drawing) के द्वारा Replicate किया जाता था, जबकि “फोटोग्रामेट्री” में या तो प्रोसेसड ऑर्थोफोटोग्राफ के डिजिटाईजेशन/वेक्टराईजेशन से या फिर स्टीरियो मॉडल (3D) के डिजिटाईजेशन/वेक्टराईजेशन से ज्यामितिक विन्यास को Replicate किया जाता है। स्वाभाविक रूप से Tracing की Accuracy Hand Drawing की accuracy से ज्यादा होती है। इसलिए आधुनिक तकनीक से बने मानचित्रों का स्वाभाविक रूप से पारंपरिक मानचित्र से ज्यादा शुद्ध होने का संभावना होती है। बावजूद इसके बिना सत्यापन के ऐसा प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है।

अतः कार्यवाह के क्रम में मानचित्र निर्माण से संबंधित विभिन्न चरणों पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कठिपय बिन्दुओं पर एक चेक आवश्यक है।

1.1 कंट्रोल प्वाइंट के वितरण का घनत्व।

1.2 किस्तवार पूर्व मानचित्र में प्रदर्शित राजस्व ग्राम का स्थल सत्यापन।

1.3 खेसरों की नम्बरिंग और भौतिक विवरणी का संकलन।

1.4 राजस्व मानचित्रों में संकेत चिह्नों का समावेशन।

1.5 D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की भौतिक शुद्धता।

1.6 D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की तर्किक शुद्धता।

**1.1 कंट्रोल प्वाइंट के वितरण का घनत्व:-**— विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत आधुनिक तकनीक से निर्मित हो रहे हमारे राजस्व मानचित्र भू—संदर्भित (Geo-referenced) होंगे। निर्मित हो रहे मानचित्रों की शुद्धता कंट्रोल प्वाइंट से सबसे मौलिक रूप से प्रभावित होती है। यही कंट्रोल प्वाइंट जियोरेफरेंसिंग का भी आधार होती है, जिससे निर्मित हो रहे डिजिटल मानचित्रों में कम्प्यूटर पर मापी का काम आसानी से संभव हो पाता है। DILRMP योजना के दिशा—निदेशों के तहत् विभिन्न स्तरों के कंट्रोल प्वाइंट की चर्चा की गई है तथा उनका एक वितरण घनत्व प्रस्तावित किया गया है।

Type of Control Points	Grid distance	D.G.P.S Observation time
PCP- Primary Control Point	16km x 16km	72 hours
SCP- Secondary Control Point	4km x 4km	4 hours
TCP- Tertiary Control Point	1km x 1km	45 minutes to 1 hours
ACP- Auxillary Control Point		15 minutes or less

सभी कंट्रोल प्वाइंट एक नेटवर्क का निर्माण करेंगे। सभी PCP (Primary Control Point) भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित किए गए कंट्रोल प्वाइंट से संबंध रहेंगे। इसी तरह SCP (Secondary Control Point) प्रत्येक PCP (Primary Control Point) से संबंध रहेंगे और TCP (Tertiary Control Point) SCP (Secondary Control Point) से संबंध रहेंगे। क्रमशः सभी ACP (Auxillary Control Point) TCP (Tertiary Control Point) से संबंध रहेंगे। इस तरह हरेक तरह के कंट्रोल प्वाइंट को मिलाकर एक नेटवर्क का निर्माण किया जाना है, जिससे भू-संदर्भन (Geo-referencing) का कार्य किया जाता है।

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रत्येक जिले में एक PCP (Primary Control Point) के मोन्यूमेंटेशन एवं ऑब्जर्वेशन का कार्य किया गया है। द्वितीयक कंट्रोल प्वाइंट 16km x 16km ग्रीड पर स्थापित किया गया है। कतिपय जगहों पर तृतीयक कंट्रोल प्वाइंट की भी स्थापना की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ETS से मापी हेतु तृतीयक कंट्रोल प्वाइंट की आवश्यकता होगी, जिसका घनत्व नितांत अपर्याप्त है। पारंपरिक संदर्भ में देखे तो त्रि-सीमाना राजस्व ग्राम के विस्तार की दृष्टि से बहुत ही सुविधाजनक संदर्भ बिन्दु है।

**पहला** तो इसकी विधिक मान्यता है।

**दूसरा,** भौगोलिक रूप से तीन राजस्व ग्रामों की सीमा के सम्मिलन बिंदु पर अवस्थित है।

**तीसरा,** विवाद समाधान हेतु तथा स्थानीय मापी के लिए इसका उपयोग संदर्भ बिन्दु के रूप में किया जा सकता है।

अतएव सभी त्रि-सीमाना को चिह्नित कर एवं अवस्थिति को सत्यापित कर एक पिलर का मोन्यूमेंटेशन किया जाना है। जिसका D.G.P.S से तृतीयक कंट्रोल प्वाइंट TCP के बराबर अर्थात् 45 मिनट से 1 घंटे का प्रेक्षण किया जाना है। फिर सारे त्रि-सीमाना को कंट्रोल प्वाइंट के नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाना है, ताकि मानचित्र वांछित शुद्धता को धारण करें।

## विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत किस्तवार प्रक्रिया में ग्रामसीमा सत्यापन पूर्व त्रिसीमानों के पहचान की प्रक्रिया

कोई भी त्रिसीमाना तीन राजस्व ग्रामों का साझा संदर्भ बिन्दु होता है। उसी तरह कोई भी ग्राम सीमा दो राजस्व ग्रामों के मध्य साझी रेखा होती है, जो अद्वितीय प्रकृति (Unique Nature) की होती है।

ग्रामसीमा निर्धारण एवं सत्यापन के पूर्व उन बिन्दुओं की पहचान एवं उनका सत्यापन किया जाना आवश्यक है जिस बिन्दु पर तीन ग्राम की सीमा मिलती है। किसी एक बिन्दु पर दो तीन या चार ग्राम की सीमाएँ आपस में मिल सकती हैं। ग्राम सीमा निर्धारण के लिए आमतौर पर ऐसे बिन्दुओं को ही मानक माना जाता है जहाँ तीन ग्रामों की सीमा आपस में मिलती हों। तीन से अधिक ग्रामों की सीमा का मिलान बिन्दु बहुत कम संख्या में देखा जाता है। तीन अलग-अलग ग्रामों की सीमाओं के मिलान बिन्दु जिसे सामान्य भाषा में त्रिसीमाना कहा जाता है की पहचान एवं सत्यापन की प्रक्रिया निम्नवत है :—

### प्रथम चरण

सर्वप्रथम जिस तीन राजस्व ग्राम के मध्य त्रिसीमाना की पहचान की जानी है उसके साथ संलग्न तीनों ग्रामों के विगत सर्वेक्षण (कैडस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी) के मानचित्रों में जो वहाँ प्रचलित हो की उपलब्धता, सुनिश्चित कर लेनी है। त्रिसीमाना की पहचान एवं सत्यापन के समय तीनों राजस्व ग्राम के अमीन/प्रतिनिधि को अपने-अपने राजस्व ग्राम के विगत सर्वेक्षण मानचित्र एवं विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के साथ स्थल पर उपस्थित रहना है।

### द्वितीय चरण

किसी भी राजस्व ग्राम के मानचित्र पर त्रिसीमाना एक त्रिभुज और तोखालाइन द्वारा दिखलाया रहता है। तीन अलग-अलग राजस्व मानचित्र में जिनकी सीमाएँ आपस में एक बिन्दु पर सटी हुई हैं, प्रदर्शित त्रिसीमाना वस्तुतः एक ही बिन्दु का संकेत करते हैं।



यह त्रिसीमाना वास्तविक धरातल पर सही-सही किस स्थान पर होगा ? इसकी पहचान के लिए अथवा पूर्व से स्थापित त्रिसीमाना के सत्यापन के लिए तीनों राजस्व ग्रामों में एक या दो मुस्तकिल की पहचान किया जाना आवश्यक है।

**[तोखालाईन –** यह त्रिसीमाना के रूप में प्रदर्शित त्रिभुज के शीर्ष बिन्दु पर एक जरीब हटकर पॉच जरीब की रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है जिसकी दिशा इस बात का संकेत करती है कि बाँकि दो राजस्व ग्राम के मध्य साझी सीमा किस दिशा में जा रही है।

**मुस्तकिल –** मुस्तकिल उन बिन्दुओं को कहा जाता है जिनके स्थान में वास्तविक धरातल पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जो विगत सर्वेक्षण के समय से अब तक उसी स्थान पर स्थापित है और जो विगत सर्वेक्षण के मानचित्र पर भिन्न-भिन्न संकेत चिह्नों द्वारा प्रदर्शित है। वास्तविक भूमि पर ये मुस्तकिल मेड़ों के कटान यथा तिमेड़ा, चौमेड़ा के रूप में अथवा किसी आकृति यथा कुँआ, मंदिर, ताड़, वरगद या कोई अन्य बड़ा वृक्ष, खम्भा, जमीन में गाड़े हुए पत्थर इत्यादि के रूप में हो सकते हैं। इन आकृतियों को अलग-अलग संकेत चिन्हों द्वारा मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे सैकड़ों मुस्तकिलों को मानचित्र पर पहचाना जा सकता है। सबसे सुलभता से मिलने वाले मुस्तकिल “तिमेड़ा” चौमेड़ा, कुओं और पेड़ हैं। इसे इस रूप में आसानी से समझा जा सकता है कि “वैसे बिन्दु जो दोनों मानचित्र अर्थात् CS एवं SS पर प्रदर्शित है तथा उसे जमीन पर पहचान लिया गया है वही मुस्तकिल है।”]


आमतौर पर सर्वेक्षण कार्य हेतु कुछ मुस्तकिल वर्तमान में अवश्य मिल जाते हैं। ऐसे मुस्तकिल विगत सर्वेक्षण एवं विशेष सर्वेक्षण दोनों मानचित्रों पर प्रदर्शित होने के साथ-साथ वास्तविक धरातल पर भी अवस्थित होते हैं और इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे ग्रामों में जहाँ भूमि का कुल रकबा बहुत कम होता है या फिर भूमि की प्रकृति समतल एवं आकृतिविहिन होती है वहाँ मुस्तकिल नहीं मिलने की स्थिति में सटे हुए ग्राम की सीमा एवं मुस्तकिल के आधार पर ग्राम सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए।


## तृतीय चरण


त्रिसीमाना से सम्बद्ध तीनों राजस्व ग्रामों में मुस्तकिल की पहचान के पश्चात् प्रत्येक ग्राम के राजस्व मानचित्र में चिन्हित किए गए त्रिसीमाना से तीनों ग्रामों में पाए गए मुस्तकिलों की दूरी को कैलिपर (परकाल) से माप कर निकालना है। इसी दूरी अर्थात् त्रिसीमाना से मुस्तकिल की दूरी को

टाईलाईन (Tieline अर्थात् बांधने वाली रेखा) कहा जाता है। इस मापी के बाद तीनों ग्राम का Some Set of distances कैलिपर (परकाल) से माप कर आँकड़ों के रूप में लिख लेना है।


यह जरूरी है कि त्रिसीमाने से संलग्न प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए कम से कम एक टाईलाईन की दूरी अवश्य सत्यापित की जाए।








उदाहरण के लिए वेना, मोरा और धमौली नामक राजस्व ग्राम आपस में त्रिसीमाना पर मिल रहे हैं। ‘वेना’ राजस्व ग्राम में 2, ‘मोरा’ राजस्व ग्राम में 3 और ‘धमौली’ राजस्व ग्राम में 4 मुस्तकिल की पहचान की गई है अर्थात् स्थल पर पाये जाने वाले ऐसे बिन्दु जो गत् सर्वे तथा प्रवर्त्तमान विशेष सर्वेक्षण सर्वे दोनों के मानचित्र में अंकित हैं। इन सभी टाईलाईन की दूरी को ई०टी०एस० से माप कर जमीन पर सत्यापित करना होता है। कम से कम तीन टाईलाईन जो कि अलग-अलग राजस्व ग्राम में पड़ रहे हैं, उनका सत्यापित होना आवश्यक होता है।



## चतुर्थ चरण

मानचित्र में त्रिसीमाना और मुस्तकिल के मध्य की दूरी टाईलाईन की माप प्राप्त करने के पश्चात वास्तविक धरातल पर उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ अलग-अलग तीन ग्रामों के खेत एक स्थान पर मिले हुए दिखाई पड़ रहे हों। इस स्थान पर त्रिसीमाना का जो संभावित स्थान (Tentative Location) होगा जो लगभग 4 से 5 फीट के दायरे में होगा। अब E.T.S को किसी ऐसे सुविधाजनक जगह पर स्टेशन करते हैं ताकि मुस्तकिल और त्रिसीमाना बिना अवरोध के दिखाई दे। अब E.T.S. से मुस्तकिल और त्रिसीमाना के बीच की दूरी को Measure करते हैं और फिर इसे measured set of distance अर्थात् टाईलाईन की लंबाई से मैच कराकर कन्फर्म करते हैं। त्रिसीमाना का बिन्दु अगर Sharply defined है और मुस्तकिल से distance ETS से Confirm होता है तो उसे ही त्रिसीमाना के रूप में Identify कर लेते हैं। अगर चार पॉच फीट का Region मिल रहा है तो त्रिसीमाना पर के Prism को थोड़ा स्थान बदल कर Adjust करते हैं। जिस जगह पर

तीनों राजस्व ग्राम के मुस्तकिल से त्रिसीमाना का Distance measurement मैच कर जाता है उस बिन्दु को त्रिसीमाना के रूप में नियत कर लिया जाता है।



उपरोक्त चित्र में वेना, मोरा और धमौली के मध्य साझा किये जा रहे संदर्भ बिन्दु को तीन टाईलाईन द्वारा त्रिसीमाना के रूप में नियत कर दिया गया है। त्रिसीमाने को नियत करने के लिए तीन टाईलाईन का होना जरूरी है। सामान्य और आदर्श स्थिति में प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक टाईलाईन पड़ना चाहिए।


**सावधानी** – जब राजस्व ग्राम मानचित्र पर Distance निकालते हैं तो इसे कभी भी Direct गुनिया या स्केल से नहीं मापना चाहिए बल्कि कैलिपर से निकाल कर फिर गुनिया या स्केल पर measure करना चाहिए अन्यथा नेत्रानुमान से दो तीन फीट का Error आने का डर रहता है। ETS से जब जमीन की दूरी माप ली जाती है और वह Confirm हो जाता है तो उसकी प्रमाणिकता सबसे ज्यादा होती है। चूंकि यही वह दूरी है, जिसको सभी मानचित्र (CS, RS, SS) में प्रदर्शित किया

गया होता है तथा यह चेन की मापी की त्रुटियों से मुक्त होता है (यथा चेन का सीधा या झुला हुआ होना Linear alignment का error इत्यादि) इसी दूरी को C.S पर भी दिखाया गया था, इसी दूरी को S.S पर भी दिखाया गया है। अगर C.S/R.S/S.S किसी में भी error distributed रहता है तो उसका पता भी इस समय चल जाता है। सुविधा की दृष्टि से यदि मुस्तकिल को पहले से पहचान कर रखा जाए तो फिल्ड में टाईलाईन सत्यापन में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है तथा त्रिसीमानों की पहचान को शीघ्रता से संपादित किया जा सकता है। अंतिम रूप से त्रिसीमाना नियत होने के बाद वहाँ निशान लगा दिया जाता है ताकि Pillar Monumataion के बाद उस पर कोड अंकित किया जा सके और उसका DGPS Observation लिया जा सके।

## **1.2 किस्तवार पूर्व मानचित्र में प्रदर्शित राजस्व ग्राम का स्थल सत्यापनः—** पारंपरिक रूप से राजस्व ग्राम के मानचित्र या उसकी स्थलीय ज्यामिति का स्थिर हो जाना ही किस्तवार माना जाता था। उस दृष्टि से देखे तो किस्तवार का कार्य मूलतः हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानचित्र का सत्यापन, नंबरिंग, भौतिक विवरणी का संकलन और आबादी सीमांकन जैसे कार्य शेष बचे रह जाते हैं। इसलिए औपचारिक रूप से किस्तवार के अंतर्गत इन्हीं शेष बची हुई प्रक्रियाओं को डाला गया है, जिसे शिविर के अंतर्गत संपन्न किया जाना है। वस्तुतः हम व्यापक स्तर पर पूरे राजस्व ग्राम का जमीनी मिलान करते हैं कि Broadly हमारे राजस्व ग्राम का मानचित्रण इस शुद्धता के साथ हुआ है कि नहीं ? ताकि उस पर आगे किस्तवार और खानापुरी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह एक आसान और एक दिवसीय प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इस तर्क पर आधारित है कि चूके मानचित्र का निर्माण ऑर्थोफोटोग्राफ पर ट्रेसिंग के द्वारा किया गया है, इसलिए ऑर्थोफोटोग्राफ पर उपलब्ध ज्यमिति और मानचित्र में लाई गई ज्यमिति में सर्वांगसमता का संबंध होगा।

इसके लिए राजस्व ग्राम में किसी भी दो लंबवत् दिशाओं का वयन किया जाता है, जिसमें Line of Sight दृश्य हो अर्थात् ETS से जमीनी दूरी का मापन संभव हो। अब राजस्व ग्राम में यथा संभव अधिकतम दूरी वाले या राजस्व ग्राम सीमा स्थल पर के समीप किसी बिन्दु को पहचानते हैं, जो मानचित्र पर प्रदर्शित है। अब इनके बीच की दूरी का मापन ETS से किया जाता है। पुनश्च इसी दूरी को मानचित्र पर निकालते हैं। यह कार्य हॉर्ड कॉपी मानचित्र पर दोनों बिन्दुओं के बीच की दूरी

स्केल से माप कर निकाल सकते हैं। मानचित्र पर दो बिन्दुओं के मध्य दूरी निकालने का काम कम्प्यूटर पर भी किया जा सकता है। ETS द्वारा मापी गयी जमीनी दूरी और मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी का अंतर 20सेमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।



$$|| AB \text{ की जमीनी दूरी } - \text{मानचित्र पर } AB \text{ की दूरी } || \leq 20 \text{ cm}$$

उसी तरह

$$|| CD \text{ की जमीनी दूरी } - \text{मानचित्र पर } CD \text{ की दूरी } || \leq 20 \text{ cm}$$

इस प्रक्रिया को दो लंबवत् दिशाओं में दुहराए जाने के कारण यह होता है कि अगर किसी दिशा में त्रुटि है, अंतर है तो कोई ना कोई अंश लंबवत् दिशाओं में जरूर प्रक्षिप्त होगा तथा इसका पता चल जाएगा।

### 1.3 खेसरों की नबरिंग और भौतिक विवरणी का संकलन— खेसरा मानचित्र निर्माण

प्रक्रिया में स्वामित्व ही खेसरों के निर्माण का आधार होता है। हवाई फोटोग्राफी में डिजिटाईजेशन से निर्मित हुए Polygon सामान्यतः खेतों को प्रदर्शित करते हैं जो मेड़ों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य स्वामित्व वाले Polygon को पहचानना होता है। बहुत संभव है आपस में दो चार सटे हुए खेत एक ही स्वामित्व के अधीन हो इसलिए उन्हें एक वृहत्तर Polygon द्वारा एक खेसरे के रूप में दिखाया जाता है। इस तरह से किसी राजस्व ग्राम के सभी खेसरों को निर्मित कर उसकी नबरिंग उ०प० दिशा से द०प० दिशा में की जाती है।

विदित हो यह प्रक्रिया क्षेत्र में निरंतर चलती है, 90–95 प्रतिशत कार्य प्रारंभिक स्तर पर हो जाता है, लेकिन Polygon नबरिंग और ज्यमिति में स्थिरता तब तक नहीं आ सकती है, जब तक खानापुरी कार्य और सुनवाई के निर्गत आदेशों का अनुपालन पूर्ण नहीं हो जाता है। इसी दौरान त्रि-सीमानों की अवस्थिति का सत्यापन और राजस्व ग्राम की सीमा भी सत्यापित की जाती है। इसके बाद खानापुरी में क्षेत्रफल का मिलान अभिलेख से और खेसरों से किया जाता है। इसलिए राजस्व ग्राम की सीमा सत्यापित होने के बाद Random एवं Rough नंबर के साथ खेसरों को Populate कर के Area Statement निकाल लिया जाता है, यह कार्य हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि अमीनों को एक संदर्भ मिला रहता है, जिससे वे अभिलेखों के क्षेत्रफल का मिलान खेसरों के क्षेत्रफल से कर सकते हैं। यह कार्य हॉर्ड कॉपी में खेसरा-पंजी भरते समय आवश्यक होता है। इसी समय अमीनों द्वारा संबंधित राजस्व ग्राम के मानचित्र के Blank Working Map Sheet पर नबरिंग का कार्य करते जाया जाता है।

इस तरह से विशेष सर्वेक्षण में नए खेसरों को नया खेसरा नम्बर मिल जाता है। जिस समय खेसरों की नबरिंग की जाती है, उस समय विशेष सर्वेक्षण अमीन क्षेत्र में मानचित्र की ज्यामिति का खेतों की ज्यमिति से मिलान करते हैं। इस कार्य हेतु अमीन का संबंधित खेत पर उपस्थित रहना आवश्यक हो जाता है। इसी समय खेसरों की भौतिक विवरणी का भी संकलन खेसरों के विरुद्ध कर लिया जाता है। बाद में यही विवरणी GIS के विभिन्न लेयरों के लिए आधार का काम करते हैं।

किसी भी खेसरे में भौतिक विवरणी वस्तुतः उस खेसरे में दिखाई देने वाली स्थाई प्रकृति की चीजे हैं। इसमें से कई मानव निर्मित हो सकती हैं, कई प्राकृतिक हो सकती हैं। इनका ज्यामितिक विस्तार क्या है, उससे निर्धारित होता है कि उन्हें Point Feature के द्वारा प्रदर्शित किया जाय, या Line Feature के द्वारा या Polygon Feature के द्वारा सामान्यतः इन्हें संकेत चिन्हों (Legends) के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्र पर संदर्भ हेतु दर्शाया जाता है।

सामान्य नियम यही है कि जैसे—जैसे मानचित्र का आकार बड़ा होता जाता है अर्थात् मानचित्र का स्केल बड़ा होता जाता है, उसी अनुपात में दर्शाए जाने वाले Features का Detail बढ़ता चला जाता है।

**1.4. राजस्व मानचित्रों में संकेत चिन्हों का समावेशन** – मानचित्र में दर्शाए जानेवाले संकेत चिन्हों का चयन कैसे किया जाय ? ऐसी बहुत सी चीजें खेसरों पर दिखाई दे सकती हैं पर केवल वैसी चीजों को ही संकेत चिन्ह के रूप में दिखाया जाना चाहिए, जो स्थायी प्रकृति के हों। साथ ही स्वतंत्र रूप से ऐसी चीजें महत्वहीन दिख सकती हैं लेकिन Bigger Picture लेने पर इनका किसी विशिष्ट फीचर का पूरा नेटवर्क जी0आई0एस0 की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी खेसरे में यदि HTL पाइलॉन है तो खेसरे के भू-स्वामित्व की दृष्टि से यह महत्वहीन जानकारी हो सकती है लेकिन अगर भौतिक विवरणी में सभी राजस्व ग्राम के सभी HTL पाइलॉन को दिखाया गया है तो पूरे जिले का मानचित्र तैयार करने पर हाइटेंशन लाइन का पूरा नेटवर्क आसानी से देखा जा सकता है।

भौतिक विवरणी की सूची जितनी विस्तृत और उनका उप वर्गीकरण जितना विलग (disjoint) होगा। मानचित्र पर अंकन में उतनी ही स्पष्टता रहेगी।

मानचित्र पर इन संकेत चिन्हों को प्रदर्शित करने का कार्य हवाई एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसके लिए भौतिक विवरणी की सूची निदेशालय स्तर पर निर्मित की गई है। हवाई एजेंसी द्वारा इन्हे मानचित्र पर अंकित करने का कार्य दो स्त्रोंतों से किया जाना है।

1. भौतिक विवरणी के वर्णित सूची के जो घटक ऑर्थो फोटोग्राफ पर दिखाई दे रहे हैं इन्हें स्थानिक शुद्धता के साथ निर्धारित संकेत चिन्ह के साथ अंकित कर लिया जाता है।
2. खेसरा पंजी में अंकित भौतिक विवरणी में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है उसे भी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी मानचित्र पर स्थानिक शुद्धता के साथ अंकित करेंगी।

**1. 5. D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की भौतिक शुद्धता—** विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत समस्त संकलित ऑकड़ों को जी0आई0एस0 प्लेटफार्म पर उपयोग में लाया जाना है। जी0आई0एस0 प्लेटफार्म में प्रयुक्त होने वाले समस्त ऑकड़ों को दो रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- i. स्थानिक प्रकृति के (Spatial)
- ii. वर्णनात्मक प्रकृति के (Textual)

इन्हीं दोनों तरह के ऑकड़ों को मिलाकर D.T.D.B का निर्माण होता है। Spatial डाटा वे हैं जिन्हें मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है और जिनका भूसंदर्भन संभव है, जैसे – point, line, polygon। वर्णनात्मक प्रकृति के डाटा का एक अच्छा उदाहरण ROR या अधिकार अभिलेख है। कोई भी अधिकार अभिलेख किसी विशिष्ट Polygon या खेसरे के संबंध में वर्णनात्मक सूचनाएँ संग्रहित करता है। जैसे किसी खेसरा का मालिक कौन है? इसकी प्रकृति क्या है? उस पर किस जाति के लोग काबिज हैं? उसपर पक्का मकान है या कच्चा मकान? इस तरह की कोई भी सूचना जिसे शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऐसे कितने भी बड़े वर्णन को Point feature, लाईन फीचर्स या Polygon फीचर्स के साथ integrate किया जा सकता है।

भौतिक शुद्धता का अर्थ है (Geo-referenced) भू–संदर्भित मानचित्र में किसी भी फीचर्स को ठीक उसी स्थान (Lat-Long) पर होना चाहिए जहाँ उसकी अवस्थिति है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि भू–सतह पर दृश्य एवं स्थायी फीचर्स के बीच एक खास ज्यामितिक संबंध होता है। जिसे “टोपोलॉजी” कहा जाता है। सरल शब्दों में कोई विशिष्ट फीचर अन्य अलग–अलग फीचर से एक विशिष्ट दूरी पर अवस्थित होता है। यही ज्यामितिक मानचित्र में भी सटीकता से प्रदर्शित होना चाहिए क्योंकि मानचित्र इसी यथार्थ का पुनर्निर्माण है। यह ज्यामिति भू–सतह पर बिल्कुल नियत

होती है और यही ज्यमिति संबंध शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं होगा अगर किसी फीचर को जानबूझ कर गलत स्थान पर प्रदर्शित कर दिया जाय। इसी आधार पर अलग-अलग भौगोलिक मानचित्रों की टोपोलॉजी अपनी विशिष्टता ग्रहण करता है।

**1.6 D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की शुद्धता—** D.T.D.B में संधारित डाटा/ऑकड़ों में आपस में संगति होनी चाहिए अर्थात् इनमें आपस में तर्किक अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। डिजिटल डाटा के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि "Garbage in"- "Garbage Out" क्योंकि कि Input Data की प्रोसेसिंग कम्प्यूटर द्वारा की जाती है, जहाँ कोई Human Intelligence नहीं होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है।

यदि कोई पूरा खेसरा एक जल निकाय है और उसकी विशिष्टताओं में या भौतिक विवरणी में हम “मकानमय सहन” डाल दे तो यह तार्किक रूप से संभव नहीं है तो यह एक तर्किक अशुद्धि है। तार्किक अशुद्धि Spatial या Textual दोनों तरह के हो सकते हैं। एक अन्य उदाहरण लें यदि कहीं पक्की सड़क दिखाया गया है और उसी जगह पर मकान बना दिख रहा हो जो आपस में Intersect हो रहा है तो यह तार्किक दृष्टि से संभव नहीं है। उसी तरह कोई भी खेसरा एक साथ परती और धनहर नहीं हो सकता है। आबादी और नदी एक ही जगह पर नहीं हो सकता है अर्थात् ऐसे सभी मानचित्र से संबंधित शर्त जो या तो अनिवार्यतः लागू होते हों या अनिवार्यतः नहीं लागू होते हों। उन्हें Topology Rules कहा जाता है। इसी के आधार पर D.T.D.B की तार्किक शुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है।

## 2. विशेष सर्वेक्षण में GIS का महत्व

कम्प्यूटर एवं सैटेलाईट के अविष्कार के बाद मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इसका सीधा असर मानचित्र निर्माण में लगने वाले समय, मानचित्र के ऑकड़ों की प्रोसेसिंग की विविधता तथा प्रदर्शन (visualization) के तौर तरीकों पर पड़ा है। पाँच अवयवों के साथ ही जी0आई0एस0 का विकास संभव हो पाया है :—

1. हार्डवेयर
2. सॉफ्टवेयर
3. डाटा
4. उपयोगकर्ता
5. प्राविधि

कोई भी घटक जी0आई0एस0 से मिलने वाले परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चाहे वह मानचित्र हो, या निर्णयन के लिए प्रस्तुत कोई निष्कर्ष हो या फिर परिणाम के रूप में प्राप्त किए गए कोई ऑकड़े हों।

**2.1 GIS - Geographic Information System** :— “भौगोलिक सूचना प्रणाली” जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे कोई भी ऑकड़े जिन्हें मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है इसे भौगोलिक के रूप में समझा जा सकता है अर्थात् पृथ्वी की सतह पर वह कहाँ है? सूचना का अर्थ उपलब्ध कई संबद्ध एवं असम्बद्ध ऑकड़ों में से किस का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है ? अर्थात् विशाल ऑकड़ों में से उपयोगी ऑकड़ों को अलग कर लेना ही सूचना है। यह एक पूरी प्रणाली है जिसमें डाटा को अलग-अलग ढंग से प्रोसेस कर सकते हैं और मानचित्र पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का सारा कार्य उद्देश्य आधारित होता है।


पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध भू-दृश्य या भौगोलिक यथार्थ को मानचित्र पर “प्वाइंट लाइन” या “पॉलिगोन” से दिखलाया जा सकता है। ऐसे ऑकड़े या लैण्ड फीचर्स जिन्हें या तो प्वाइंट या पोलिगॉन के रूप में मानचित्र पर प्रस्तुत किया जा सकता है उसे जी0आई0एस लेयर के रूप में समझा जा सकता है। ऑकड़ों की अंतर्संम्बद्धता और फंक्शनलिटि ही लेयर के रूप में वर्गीकरण

का आधार होती है। उदाहरण के लिए किसी राज्य के मानचित्र पर सिर्फ राष्ट्रीय – राजमार्ग और राज्य – राजमार्ग और जिला सड़क की प्रस्तुतीकरण आवश्यक हो सकता है। राजस्व ग्राम के स्तर पर कच्ची सड़क और किसी भी तरह के पक्की सड़क की भी जानकारी पर्याप्त और प्रासंगिक हो सकती है। कालांतर में छोटी–छोटी भौगोलिक इकाइयों को समेकित कर जब वृहत्तर भौगोलिक इकाइयों का मानचित्र बनाया जाएगा अर्थात् राजस्व ग्रामों को मिलाकर पंचायत, पंचायत को मिलाकर अंचल, अंचल को मिलाकर अनुमंडल, अनुमंडल को मिलाकर जिला तो लेयर के रूप में वही सूचनाएँ हमें मानचित्र पर उपलब्ध हो पाएंगी जिनका संकलन विशेष सर्वेक्षण के समय किया गया है।

जी0आई0एस की एक बड़ी ताकत है कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त भौगोलिक ऑकड़ों को हम एक खास भूसंदर्भित (जियोरेफरेन्सड) प्लेटफार्म (प्रोजेक्शन, डेटम) पर प्रोसेस कर सकते हैं। विभिन्न ऑकड़ों के बीच एक पैटर्न या अंतर्सम्बद्धता होती है, जिसे प्रथम दृष्ट्या पहचानना मुश्किल होता है लेकिन विभिन्न लेयरों में बड़े डाटा को प्रोसेस करने पर यह स्पष्ट होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि बिहार के अनियोजित क्षेत्रों में बसावट का अध्ययन करना हो तो बसावट के विभिन्न आकारों में सड़क की अवस्थिति या सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की अवस्थिति का प्रभाव आकार विरूपण के रूप में स्पष्ट दिखने लगता है। सामान्यतः सड़कों के किनारे बसावट का एक रैखिक संकेंद्रण दिखने लगता है। ब्लॉक या सामुदायिक सुविधाओं के इर्द–गिर्द बसावट का संकेंद्रण ज्यादा दिखने लगता है। बिगर पिक्चर लेने पर डाटा का एक पैटर्न या अंतर्संबंध उभर कर सामने आता है।

प्रवर्तमान विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा उद्देश्य जमीनी यथार्थ का यथा संभव पुनर्निर्माण करना है। यह कार्य जितनी शुद्धता (Accuracy) और सटीकता (Precision) से होगा हमारा उद्देश्य उतनी ही अच्छी तरह पूरा होगा। एक कम्प्यूटराईज्ड डिजिटल डाटाबेस निर्मित किया जाना है। इसे ही विशेष सर्वेक्षण में D.T.D.B (Digital Topography Database) के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग बाद में किया जाएगा।

GIS में उपयोग किए जानेवाले डाटा दो तरह के होते हैं।



Geo-Spatial या “भू-स्थानिक डाटा” अर्थात् जिनका सीधा संबंध अवस्थिति की शुद्धता से है अर्थात् जिन्हें मानचित्र पर एक खास अक्षांश-देशांतरीय मान या कोर्डिनेट वेल्यू के साथ ही दिखाया जा सकता है। इनके लिए Positional accuracy महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसका सीधा संबंध मानचित्र की शुद्धता से होता है। अगर Positional accuracy या स्थानिक शुद्धता नहीं है तो Data का Measurement Value सीधे दोषपूर्ण हो जाएगा।

इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर किसी मुस्तकिल को या तीमेड़ा, चौमेड़ा को गलत जगह पर दिखला दिया जाए तो न सिर्फ उससे सटे खेसरे का आकार विरुपित हो जाएगा बल्कि उसका क्षेत्रफल भी त्रुटिपूर्ण होगा।

Textual डाटा वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। ये अवस्थिति की शुद्धता से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे कोई मकान किसी खास जगह पर हो सकता है, लेकिन इसमें रहने वाले व्यक्ति की “जाति” कोर्डिनेट से प्रभावित नहीं होती है। प्रस्तुत संदर्भ में “अधिकार-अभिलेख” (RoR) Textual प्रकृति का डाटा है।

**2.2 Attribute Data** :— Point Line, Polygon से संबंधित ऐसी सभी सूचनाएँ या विशेषताएँ जिसे सारणी (Tabular) के रूप में संधारित किया जा सकता है उसे Attribute Data कहते हैं। Attribute Data को किसी विशिष्ट लैंड फीचर्स के विरुद्ध सामान्यतः row wise (पंक्तिबद्ध रूप से) संधारित किया जाता है। किसी भी लैंड फीचर्स के Unique Identifier के विरुद्ध इसे संकलित और संधारित किया जाता है। जैसे राजस्व ग्राम के खेसरों का एक Layer हो सकता है। इसमें प्रत्येक खेसरा अलग-अलग “खेसरा संख्या” से पहचाना जा सकता है। खेसरों के Attribute Information को सारणी रूप में खेसरा संख्या के विरुद्ध ही संधारित किया जाता है। जैसे किसी खेसरा के “मालिक का नाम”, “जाति”, “जमीन की किस्म”, “धारण के प्रकार”, “नवैयत” या उस पर “पड़नेवाले आपत्तियों” सभी इस श्रेणी में रखी जा सकती हैं। सामान्यतः Spatial Data की सभी विशेषताएँ जिसे सारणीबद्ध किया जा सकता है Attribute Data के रूप में जानी जाती हैं।

GIS के अंतर्गत डाटा के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष कितने प्रभावी हैं ? यह इस बात पर निर्भर करता है कि विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया गया Layer और Attribute Data कितना प्रासंगिक

है ? कितना शुद्ध है ? “Form- 6” या खेसरा पंजी मूलतः Attribute Data का Collection है। GIS की दृष्टि से देखे तो समस्त विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया Data Creation और Data Validation की प्रक्रिया है। अंतिम प्रकाशन सत्यापित डाटा के निर्मित हो जाने की गारंटी है। सर्वेक्षण के विभिन्न चरण वास्तव में इन्हीं Spatial और Textual डाटा के सत्यापन के क्रमिक पड़ाव हैं।

**2.3 GIS Layer निर्माण से संबंधित प्रविष्टियाँ एवं क्षेत्र संबंधी कार्य :-** सामान्यतः किसी भी देश में भू-स्वावित्व वाले मानचित्रों को निर्मित करने वाली जो भी संस्थाएँ होती हैं उनके पास भूमि से संबंधित सूचनाओं का विशाल भंडार होता है। इन सूचनाओं की आवश्यकता दो कारणों से होती है एक तो इसका उपयोग भूस्वामित्व से संबंधित तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए जरूरी होता है दूसरा Large Scale Mapping पर ही Ownership Map का निर्माण किया जाता है जिसे real time या सतत अद्यतन रखने के लिए इन सूचनाओं का संग्रहण आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा मानचित्र वास्तविक भूदृष्टि की प्रतिकृति होता है। इसलिए भूदृश्य को अगर संपूर्णता में प्रदर्शित किया जाना है तो भू सतह के सभी land features को मानचित्र में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। बाद में यही features thematic maps के निर्माण का आधार बनता है thematic map एक तरफ जहाँ विभिन्न सरकारी या निजी संस्थाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान उपलब्ध कराती हैं वहीं यह आय का साधन भी है।

राजस्व ग्राम के अर्थात् भू-सतह पर जो भी लैंड फीचर्स उपलब्ध हैं, उनका संकलन किया जाना है। यही GIS Layer की भूमिका निभाएंगे। इसे निर्मित करने के लिए दो चीजों पर निर्भरता रहती है। पहला तो ऑर्थोफोटोग्राफ जिस पर विभिन्न फीचर्स को देखकर सहज रूप से पहचाना जा सकता है। दूसरा जिस समय अमीन क्षेत्र में रहते हैं, उस समय खेसरावार विभिन्न फीचर लेयर्स को खेसरा-पंजी के “कॉलम-10” में प्रविष्टि के उद्देश्य संकलित किया जाएगा।

इस कार्य हेतु एक संदर्भ सूची निदेशालय द्वारा निर्मित है, जो निम्नवत् है:-

## खेसरे की भौतिक विवरणी (प्रपत्र-6, कॉलम-10)

<b>Broad Category</b>	<b>Sl. No.</b>	<b>Land Use</b>
<b>स्थल-स्वरूप</b>	1	धनहर
	2	भीठ
	3	झाड़ी एवं वन
	4	पहाड़ी
	5	टीला / गुंबद / पिंड
	6	चौर
	7	खरहर / खरहल / चारगाह
	8	टोंगरी / पथरीली जमीन
	9	खंता (प्राकृतिक)
	10	खंता (कृत्रिम)
<b>आवासीय एवं वाणिज्यिक</b>	11	हाट / बाजार (अस्थायी)
	12	ईट भट्टा
<b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य</b>	13	अस्पताल
	14	पशु चिकित्सालय
	15	स्वास्थ्य उपकेन्द्र
	16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	17	सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	18	डायग्नोस्टिक सेंटर
	19	रेफरल अस्पताल
	20	सदर अस्पताल
	21	अनुमंडल अस्पताल
	22	मुर्द-घट्टी
<b>सामुदायिक फीचर</b>	23	कब्रिस्तान
	24	शमशान
	25	शवदाह गृह
	26	मृत जानवर का शमशान (चिरारी)
	27	सेंट्रल जेल
	28	सब जेल
	29	सामुदायिक भवन
	30	पंचायत सरकार भवन
<b>संचार तंत्र</b>	31	डाकघर
	32	टेलिफोन कार्यालय
	33	संचार टॉवर
	34	रेडियो / टीवी०स्टेशन
<b>विद्युत संबंधी</b>	35	थर्मल पॉवर प्लॉट
	36	पॉवर हाउस

	37	विद्युत उप केन्द्र
	38	HTL पायलोन
<b>जल निकाय</b>	39	नदी
	40	सोता
	41	चौर
	42	मुख्य नहर
	43	वितरक नहर
	44	नाला
	45	झील
	46	तालाब / पोखर
	47	आहर
	48	पंप हाउस
	49	झरना
	50	जल प्रपात
	51	राजकीय नलकूप
	52	नलकूप
	53	मलोपचार केन्द्र
<b>सड़क</b>	54	राष्ट्रीय राजमार्ग
	55	राज्य राजमार्ग
	56	जिला सड़क
	57	PMGSY स्थानीय पथ
	58	कंक्रीट सड़क
	59	अन्य सड़क
	60	कच्ची सड़क
	61	गली
	62	बस स्टैंड / स्टेशन
	63	पुल / फ्लाई ओवर
	64	पुल / पुलिया
	65	यात्री पड़ाव
	66	टोल प्लाजा
<b>रेलवे</b>	67	रेलवे जमीन
	68	रेलवे लाईन
	69	रेलवे ओवर ब्रिज
	70	रेलवे स्टेशन
<b>वायुयान</b>	71	हवाई अड्डा
<b>सिंचाई संबंधी</b>	72	डेम
	73	नहर स्लुइस गेट
	74	पुल / पुलिया / कल्वर्ट
	75	कौजवे
	76	सिंचाई नाला
	77	मिंडा

	78	मिंडा सह सऱ्हक
<b>शैक्षणिक संस्थान</b>	79	आंगनबाड़ी
	80	प्राथमिक विद्यालय (सरकारी)
	81	मध्य विद्यालय (सरकारी)
	82	उच्च विद्यालय (सरकारी)
	83	नवोदय विद्यालय
	84	केन्द्रीय विद्यालय
	85	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सरकारी)
	86	महाविद्यालय
	87	पॉलीटेक्निक कॉलेज (सरकारी)
	88	आईटीआई (सरकारी)
	89	अभियंत्रण महाविद्यालय (सरकारी)
	90	चिकित्सा महाविद्यालय (सरकारी)
	91	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सरकारी)
	92	प्रशिक्षण केन्द्र एनएम० (सरकारी)
	93	प्रशिक्षण केन्द्र जीएनएम० (सरकारी)
	94	प्रशिक्षण केन्द्र पारामेडिकल (सरकारी)
	95	<b>BCR (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर)</b>
	96	विश्वविद्यालय (सरकारी)
	97	विश्वविद्यालय (निजी)
	98	संस्कृत विद्यालय (सरकारी)
	99	मदरसा
	100	पुस्तकालय
<b>संस्कृति एवं लोकोपयोगी</b>	101	स्टेडियम
	102	खेल मैदान
	103	थियेटर
	104	दुर्घ संग्रहण केन्द्र
	105	औद्यौगिक प्रक्षेत्र (सरकारी)
	106	उद्योग / कारखाना
	107	पार्क
	108	पेट्रोल पंप
	109	विश्राम गृह – (सरकारी)
	110	खदान
	111	बाजार
	112	सार्वजनिक शौचालय
	113	हल्का कचहरी
	114	पुलिस स्टेशन
	115	बैंक
	116	सरकारी कार्यालय
	117	पुलिस बैरेक
	118	गोदाम

	119	गैस गोदाम
	120	शीत भंडारण गृह (कॉल्ड स्टोरेज)
<b>पूजा एवं धार्मिक</b>	121	मंदिर सरकारी (शिव, हनुमान, दुर्गा, काली, सूर्य, ब्रह्म, देवी, शलहेस, राम जानकी, ठाकुरबाड़ी, )
	122	मंदिर निजी (शिव, हनुमान, दुर्गा, काली, सूर्य, ब्रह्म, देवी, शलहेस, राम जानकी, ठाकुरबाड़ी, )
	123	ईदगाह
	124	करबला
	125	हज भवन
	126	दरगाह
	127	खानकाह
	128	ईमामबाड़ा
	129	गुरुद्वारा
	130	मस्जिद
	131	गिरिजाघर
	132	मठ
	133	मकबरा
	134	मजार
	135	पूजा स्थल (सरना जनजाति)
<b>पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक</b>	136	उत्खनन
	137	खंडहर
	138	स्तूप
	139	गुफा
	140	संग्रहालय
	141	किला
	142	ऐतिहासिक स्थल
	143	स्मारक
<b>पर्यावरणीय एवं बागवानी (Horticulture) संबंधी</b>	144	चिड़ियाखाना
	145	पक्षी विहार
	146	वन्यजीव अभयारण्य
	147	राष्ट्रीय पार्क
	148	पौधशाला
	149	उद्यान (सरकारी)
	150	बड़े वृक्ष के बगान
	151	केला बगान
	152	चाय बगान
	153	पान बगान
	154	बांसबारी (सरकारी)
	155	तरबन्ना (सरकारी)
	156	तरबन्ना (निजी)

	157	खजुरबन्ना (सरकारी)
	158	खजुरबन्ना
	159	परती भूमि घास
	160	मिश्रित जंगल
	161	फूस / कास (घास)
	162	झाड़ियाँ

यही सूची भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के Drop Down में भी उपलब्ध है, जिसकी प्रविष्टि खेसरों के विरुद्ध Select करके की जा सकती है। इस सूची में उपलब्ध सभी फीचर्स जो किसी भी खेसरे में अवस्थित हैं, उसका संकलन किया जाना है। फोटोग्राफ या इमेज पर बहुत सारे फीचर्स को देखकर नहीं पहचाना जा सकता है। जैसे कोई मकान सामुदायिक भवन है, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक विद्यालय इसका पता ऑर्थोफोटोग्राफ से नहीं चल सकता है। क्षेत्र में जाकर देखने पर इसका सत्यापन बहुत आसान हो जाता है, जिसे संबंधित खेसरे के विरुद्ध प्रविष्टि किया जा सकता है। एक बार जब खेसरा पंजी में प्रविष्टि हो जाता है तो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा LPM निर्माण के पूर्व सभी फीचर्स को मानचित्र के सभी खेसरों में प्रदर्शित किया जाता है।

मानचित्र पर सभी फीचर लेयर को प्रदर्शित करने के लिए अलग-अलग संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों के प्रयोग से मानचित्र पर इन्हें पहचानना काफी आसान होता है। इन संकेत चिन्हों को Legends कहा जाता है। संकेत चिन्हों की एक सूची निदेशालय पर निर्मित है। जो निम्नवत है:-

# संकेत चिह्न

	सीमा रेखा – राज्य, ज़िला, अंचल, ग्राम, तोखा
	अलापत – दोनों गाँवों में नाला का आधा-आधा हिस्सा (निस्फा-निस्फ), दोनों गाँवों में सड़क का आधा-आधा हिस्सा (निस्फा-निस्फ), एक गाँव में नाला का पूरा हिस्सा, एक गाँव में सड़क का पूरा हिस्सा
	दोनों गाँवों में नदी या सड़क का आधा-आधा हिस्सा (धार-धुरा), नाला, स्थायी मेड, अस्थायी मेड, खारीज मेड
	मकान अलामात खेसरा, पक्का बाँध के साथ तालाब खेसरा, बन्धान (बाँध) खेसरा लाईन, बड़ा बाँध खेसरा लाईन, चादर सीमा या मारजन लाईन
	पक्की सड़क, कच्ची सड़क, उठाई हुई सड़क, इवी हुई सड़क, पगडण्डी, बैलगाड़ी / ठेला मार्ग
	रेल लाईन सिंगल, रेल लाईन डबल
	पाईप लाईन, बन्धान (बाँध) खेसरा लाईन पर नहीं
	बोट (नौव), झील, माईल पथर, तीर चिह्न (पानी बहाव दिशा), लेवल क्रॉसिंग, पक्का पुल
	तीन सीमानी पथर-१, तीन सीमानी पथर-२ चार सीमानी पथर, बम्बा-१, बम्बा-२, बम्बा-३, बम्बा-४ तिनमेढ़ा बम्बा-१, तिनमेढ़ा बम्बा-२, चौमेढ़ा बम्बा-१, चौमेढ़ा बम्बा-२

			तिनमेहा मुस्तकील – १, तिनमेहा मुस्तकील – २
			चौमेहा मुस्तकील – १, चौमेहा मुस्तकील – २, मुस्तकील – दूसरे गाँव से प्लॉट किया
			बैंच मार्क पत्थर, पत्थर पर बम्बा, वन सीमा पत्थर एवं वन सीमा
			मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा
			शमशान घाट, कब्रिस्तान (ईसाइयों का), कब्रिस्तान (मुसलमानों का), मकबरा
			रेलवे स्टेशन, बस अड्डा
			विश्राम गृह – वन, सिंचाई, अन्य
			विद्युत खम्भा, टेलिग्राफ, रेलवे सिग्नल
			कुआँ – पक्का, कच्चा, अप्रयुक्त
			आम बगान, बगान, पान बगान, चाय बगान, पक्का मकान
			अकृषित परती भूमि, पहाड़ी / टोनारी, पथरीला जमीन, बड़ा गुम्बदनुमा चढ़ाना
			पुरानी परती भूमि, नई परती भूमि, परती भूमि घास, खदान,
			अन्य
			साल जंगल, पारस जंगल, परती जंगल, मिश्रित जंगल
			नारियल पेड़, खजूर पेड़, ताढ़ पेड़, सुपारी पेड़, पीपल पेड़, आम पेड़
			साल पेड़, बरगद पेड़, इमली पेड़, बाँस, झाउ
			अन्य पेड़

<b>Sl no.</b>	<b>Feature Names</b>	<b>Symbol</b>		<b>Sol Available</b>
1	Primary Control Point(PCP)	A		
2	Secondary Control Point(SCP)			
3	Tertiary Control Point(TCP)			
4	Auxillary Control Point(ACP)			
5	BRICK LIME KILN	A		
6	Primary Health Centre			
7	Referral Hospital			
8	Sadar Hospital			
9	Sub Divisional Hospital			
10	Diagnostic Centre			
11	Panchayat Government Building			
12	Passenger Stop			
13	Toll	A		
14	HTL Pylon	A		

15	Wireless Station Mast	A		
16	Thermal Power Plant			
17	Power House	A		
18	Power Substation	A		
19	Canal	A		
20	State Tube Well			
21	Tube Well	A		
22	Petrol Pump	A		
23	Dairy	A		
24	Community Centre			
25	Police station	A		
26	Bank	A		
27	Post Office	A		
28	Govt. Office	A		
29	Aerodrome	A		
30	Bus Terminal	A		

31	Primary School			
32	Middle School			
33	Inter School			
34	Degree School			
35	Polytechnic			
36	ITI			
37	Engineering College			
38	BRC(Block Resource Centre)			
39	Library	A		
40	Madarsa			
41	University			
42	Anganwari			
43	Godown			
44	Gas Godown			
45	Statue			
46	Public Toilet	A		

47	Cremation House	 CREMATION HOUSE		
48	Jail			

मानचित्र निर्माण वस्तुतः ज्यमितिक रूप अनुपातिक प्रदर्शन की तकनीक है। Layers या Legends को मानचित्र पर कैसे दिखाया जाना है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मानचित्र का किस्तवार क्या है ? अर्थात् मानचित्र का स्केल क्या हैं किसी छोटे स्केल वाले मानचित्र यथा 1:100,00,000 या स्टलस मानचित्र पर कोई शहर एक बिन्दु से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है अर्थात् उसको प्वाइंट Symbol से निरूपित किया जाएगा। लेकिन इसी शहर का मैप यदि 1:4000 या 1:1000 पर निर्मित किया जाता है तो प्रत्येक मकान को भी बिन्दु से निरूपित करना गलत होगा बल्कि उसे पॉलीगोन से निरूपित करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी राजस्व ग्राम के आबादी वाले हिस्से में कोई औँगनबाड़ी है तो पॉलीगोन निर्मित कर उसके अंदर औँगनबाड़ी का संकेत चिन्हों उपयोग में लाया जाना चाहिए।

**2.3 ऑकड़ों की संगति (Sympathy of Data) :-** “प्रपत्र-6 की इंट्री” या खेसरा पंजी के निर्माण के दौरान बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक खेसरे के विरुद्ध जो भी इंट्री की जा रही है या जो भी Attribute डाटा संकलित किया जा रहा है वो आपस में अंतर्विरोधी ना हो। वे अंतर्संबंधित और संगति में होने चाहिए।

भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form-6 में खेसरों से संबंधित Attribute जमा किए जा रहे हैं। चाहे वह भूमि का वर्गीकरण हो या खेसरों की यूनिक आईडी या खेसरों की यूनिक आईडी भी खेसरों की अवस्थिति, खेसरों के संधारण के प्रकार तथा उनके भू-उपयोग। भू-आच्छादन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर में चयनित किए जाने वाली प्रविष्टियों में शुद्धता का होना आवश्यक है। निदेशालय स्तर पर इसकी भी सूची निर्मित की गई है, जो निम्नवत है।

## **2.5 14 Digit Parcel Unique ID**

1st to 6th digit - LGD (Local Governance Directory) Code
7th to 11th digit- Khesra No. of any particular land parcel in the related village
12th digit- Holding type Code
13th to 14th digit- Land Use / LandCover Code

**Three digit for Holding type and Land Use/Land Cover Code**

### **12th digit**

1	अनाबाद सर्वसाधारण (आम)
2	अनाबाद बिहार सरकार (खास)
3	कैसरे हिंद (भारत सरकार)
4	कैसरे हिंद (राज्य सरकार)
5	खासमहल
6	बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि
7	रैयती (सरकारी विभागों की भूमि)
8	रैयती (रैयती)

### **13th & 14th digit**

01	फसला सिंचित	कृषि
02	फसला असिंचित	
03	बागवानी	
04	नकदी	
05	बांसवाड़ी	
06		
07		
08		
09		

10	बलुआही	परती
11	उसर / बंजर	
12	पथरीला	
13	पहाड़ी	
14	दलदल	
15	खरहर / खरहुल / चारागाह	
16	गड्ढा	
17		
18		
19		
20	कच्चा मकान सह मिश्रित उपयोग	आवासीय
21	पक्का मकान सह मिश्रित उपयोग	
22	पक्का मकानमय सहन	
23	कच्चा मकानमय सहन	
24	पक्का मकान	
25	कच्चा मकान	
26	झोपड़ी / करकट	
27		
28		
29		
30	इंट भट्ठा	व्यावसायिक (वाणिज्यिक / औद्योगिक)
31	गोदाम	
32	खरीदारी केन्द्र	
33	ग्रामीण बाजार / हाट	
34	होटल	
35	पेट्रोल पंप	
36	कोल्ड स्टोरेज	
37	ऑफिस / कार्यालय	
38	सिनेमा / थियेटर	
39	उद्योग / कारखाना	
40	शमशान	सामुदायिक उपयोग
41	कब्रिस्तान	
42	किसी भी तरह का पूजा स्थल	
43	शिक्षण संबंधी संस्थान	
44	खेल मैदान	
45	विकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी	
46	सामुदायिक भवन	
47	रिक्रियेशन सेंटर / पार्क	
48	खदान / खान	
49	पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्व संबंधी	

50	नदी	<b>जल निकाय</b>
51	मुख्य नहर	
52	वितरक नहर	
53	झील	
54	चौर	
55	मोइन	
56	तालाब—पोखर	
57	आहर—पईन	
58	डैम / रिजर्वायर	
59		
60	राष्ट्रीय राजमार्ग	<b>परिवहन (सड़क)</b>
61	राज्य राजमार्ग	
62	जिला सड़क	
63	ग्रामीण सड़क	
64	नगरीय सड़क	
65	प्रोजेक्ट सड़क	
66	कच्ची सड़क	
67	बस स्टैण्ड	
68		
69		
70	रेलवे लाईन	<b>परिवहन (रेल / वायुयान)</b>
71	रेलवे स्टेशन	
72	रेलवे जमीन	
73	हवाई अड्डा	
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		<b>भविष्य उपयोग हेतु रिक्ति</b>
81		
82		
83		
84		
85		
86		

87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	

विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा प्रत्येक खेसरे के विरुद्ध की गई समस्त इंट्री की जाँच उसके उपर स्तर से किया जाना आवश्यक है।

प्रत्येक खेसरे के विरुद्ध इंट्री की गई विभिन्न Attribute को एक—दूसरे के विरुद्ध संगति के लिए देखा जा सकता है। यदि जोड़ा बनाकर इनकी संगति या अंतर्विरोध का पर्यवेक्षण कर लिया जाय तो अधिकांश असंगति का निराकरण LPM प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है।

- i. भूमि का वर्गीकरण Vs पार्सल यूनिक का भू—उपयोग / भू—आच्छादन
- ii. धारण का प्रकार Vs नवैयत
- iii. खेसरे की भौतिक विवरणी Vs भूमि का वर्गीकरण
- iv. खेसरे की भौतिक विवरणी Vs धारण के प्रकार

इस चेकिंग का मूल उद्देश्य Attribute डाटा के आपसी संबंध का सही संधारण है। उदाहरण के तौरे पर किसी यदि खेसरा में भौतिक विवरणी में “प्राथमिक विद्यालय” दर्ज है और उसके धारण प्रकार में “बंदोबस्त की गई हस्तांतरणीय” भूमि है तो यह एक बेमेल ऑकड़ा है।

इंट्री की शुद्धता और सटीकता ही हमारे D.T.D.B को अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनायेगा। “भू—सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर” में राजस्व ग्रामवार प्रविष्टियों हेतु एक “चेकलिस्ट” का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, जो अनंतिम है। इंद्राज के समय इसका संदर्भ किया जा सकता है।

### 3. भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form- 6 की इंट्री का मैन्युअल

#### प्रपत्र- 6 : खेसरा पंजी का प्रपत्र

The screenshot shows the Bihar Land Survey Management System interface. At the top left is the Bihar Government logo and the text "Directorate of Land Records & Survey, Government of Bihar". At the top right is the text "Land Survey Management System". A navigation bar at the top includes links for Home, Entry, Update, Delete, Report, and Miscellaneous. On the far right, there is a user icon labeled "TEST" and "Mauza".  
A sidebar on the left lists "Prapatr-1", "Prapatr-2", "Prapatr-3", "Prapatr-3(2)", "Prapatr-4", "Prapatr-5", "Prapatr-6", and "Prapatr 5 Update".  
The main content area features a photograph of surveyors in a field. To the right of the photo, under the heading "Updates:", are two bullet points:

- Training is to be held on 15.11.2019
- Please send Weekly Report.

  
On the far right, there is a small table titled "Details" with two rows:

Details	Total
Total Holder Entered	
Total Mauza	1115

  
A link "Get Plot Status" is located below the table.

1. “Bhu-Sarvekshan Software” में Login करें।
2. “Entry” ऑप्शन में Prapatr-6 पर क्लिक करें।

The screenshot shows a selection page for "Prapatr-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)". At the top left is the Bihar Government logo and the text "Directorate of Land Records & Survey, Government of Bihar". At the top right is the text "Land Survey Management System". A navigation bar at the top includes links for Home, Entry, Update, Delete, Report, and Miscellaneous.  
Below the navigation bar, there is a search bar with the placeholder "प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)" and a "Go" button. To the left of the search bar is a dropdown menu labeled "Select Mauza" with the option "--Select--".

3. Select Mauza-आवंटित मौजा को चयनित सूची से चयन करें।



| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

Select Mauza

--Select--  
--Select--  
**Az Rakbe Chapahi -228**  
Bithauni -227  
Chapahi -229  
Gangdwar -231

Go

Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar.

#### 4. “Go” बटन पर क्लिक करें।



| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

Select Mauza

Bithauni -227

Go

मौजा में कुल नए खेसरों की संख्या *	<input type="text"/>
एकड़ *	<input type="text"/> डेसीमल
मौजा का कुल रकबा	<input type="text"/>
इनकी देखरेख में	<input type="text"/>
<b>Confirm for Save</b>	

#### 5. “Go” बटन पर क्लिक करने के बाद प्रथम बार ही एक फॉर्म खुलेगा जिसमे “मौजा में कुल नए खेसरों की संख्या, मौजा का कुल रकबा, एवं इनकी देख रेख में” की सूचना को प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया सभी मौजों में सिर्फ पहली बार करना होगा।



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

Select Mauza	Bithauni -227	Go
मौजा में कुल नए खेसरों की संख्या *	26	
एकड़ *		डेसीमल
मौजा का कुल रकबा	23	60
इनकी देखरेख में		
<input type="button" value="Confirm for Save"/>		

6. मौजा में कुल नए खेसरों की संख्या - आपके द्वारा जिस आवंटित मौजा का चयन किया गया उस मौजे में किश्तवार पश्चात् एजेंसी से प्राप्त मानचित्र से कुल नए खेसरों की संख्या लिखें।
7. मौजा का कुल रकबा - आपके द्वारा जो मौजा चयन किया गया है, उस मौजे का हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त कुल रकबा लिखें।
8. इनकी देखरेख में - अपने शिविर प्रभारी का नाम प्रविष्ट करें।
9. “Confirm for Save” बटन पर क्लिक करें।
10. प्रपत्र-6 में कुल 24 कॉलम दिए हुए हैं, जिसे ऑनलाइन एंट्री में आसानी के लिए मुख्यतः 4 भागों में बाँट दिया गया है। प्रपत्र-6 में कुछ सूची ऐसे हैं जिसमें पूर्व से ही कुछ निर्धारित विकल्प हैं, और हमें उसी सूची से विकल्प को चयनित करना है। विकल्पों के संदर्भ हेतु निदेशालय स्तर पर निर्मित सूची निम्नवत है, जिसे ड्रॉप डाउन में भी दिखाया गया है:-

### **3.1 धारण के प्रकार (Holding Type)**

**(प्रपत्र-6, कॉलम-2 में)**

1. अनाबाद सर्वसाधारण (गैरमजरुआ आम)
2. अनाबाद बिहार सरकार (गैरमजरुआ खास)
3. कैसरे हिन्द (भारत सरकार)
4. कैसरे हिन्द (बिहार सरकार)
5. खास महाल
6. बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि
7. रैयती (सरकारी विभागों की भूमि)
8. रैयती (रैयती)

### **3.2 नवैयत (स्वामित्व के आधार)**

**(प्रपत्र-6 का अभ्युक्ति कालम में)**

1. रैयती / खतियानी / मौरुसी
2. घोषित बटाईदार
3. बदलैन (विनिमय)
4. भूदान
5. डिक्री
6. भूमि अर्जन
7. वसीका / केवाला / वैलाकलामी / विक्रय पत्र / विक्रयनामा
8. बख्शीश / निबंधित दान पत्र
9. वसीयतनामा (प्रावेट समर्थित)
10. बंदोबस्ती
11. बासगीत पर्चा

### 3.3 भूमि का प्रकार/वर्गीकरण

(प्रपत्र-6, Column-11)

- 
- ```
graph LR; A[कृषि] --> B[i. धनहर]; A --> C[ii. भीठ]; 1[1. वासगीत/आवासीय] 2[2. जंगल] 3[3. झाड़ी] 4[4. घास मैदान/खरहर] 5[5. जलजमाव क्षेत्र/चौर] 6[6. गड्ढा/खंता— प्राकृतिक/कृत्रिम] 7[7. पईन/आहर] 8[8. सोता] 9[9. चिरान] 10[10. झील/पोखर/तालाब] 11[11. भिण्ड/भिण्डा/पिंड] 12[12. परती/बलुआही/दियारा/उसर/बंजर/पथरीला/पहाड़ी] 13[13. व्यावसायिक/वाणिज्यिक] 14[14. औद्योगिक]
```
1. कृषि      —————→ i. धनहर  
                  —————→ ii. भीठ
1. वासगीत / आवासीय
  2. जंगल
  3. झाड़ी
  4. घास मैदान / खरहर
  5. जलजमाव क्षेत्र / चौर
  6. गड्ढा / खंता— प्राकृतिक / कृत्रिम
  7. पईन / आहर
  8. सोता
  9. चिरान
  10. झील / पोखर / तालाब
  11. भिण्ड / भिण्डा / पिंड
  12. परती / बलुआही / दियारा / उसर / बंजर / पथरीला / पहाड़ी
  13. व्यावसायिक / वाणिज्यिक
  14. औद्योगिक

### **3.4 बिहार की जातियाँ**

#### **(प्रपत्र-6, कॉलम-2)**

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | शेख                      |
| 2  | एराकी (बनिया)            |
| 3  | धीमर                     |
| 4  | धामिन                    |
| 5  | धोबी (मुस्लिम)           |
| 6  | धानुक                    |
| 7  | धुनिया (मुस्लिम)         |
| 8  | धनवार                    |
| 9  | यति                      |
| 10 | घासी (यादव)              |
| 11 | घटवार                    |
| 12 | खंगर                     |
| 13 | खटिक                     |
| 14 | खत्री                    |
| 15 | खतौरी                    |
| 16 | खेलटा                    |
| 17 | खटवा                     |
| 18 | ढेकारू                   |
| 19 | ठठेरा (बनिया)            |
| 20 | इब्राहिमी (मुस्लिम)      |
| 21 | ठकुराई (मुस्लिम)         |
| 22 | इदरीसी (मुस्लिम)         |
| 23 | ईटपज (मुस्लिम)           |
| 24 | ईटफरोश (मुस्लिम)         |
| 25 | ईटफरोश (मुस्लिम)         |
| 26 | बढ़ई                     |
| 27 | बंगीवैश्य (बंगाली बनिया) |
| 28 | बकखो (मुस्लिम)           |
| 29 | बनिया                    |
| 30 | बरई,                     |
| 31 | बाथम बैश्य               |
| 32 | बागदी                    |
| 33 | बेलदार                   |
| 34 | बर्नवाल                  |
| 35 | ब्रह्मभट (हिन्दू)        |
| 36 | ब्राह्मण                 |
| 37 | कमार                     |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 38 | कमलापुरी वैश्य (बनिया)     |
| 39 | कर्मकार                    |
| 40 | कथबनिया                    |
| 41 | कपरिया                     |
| 42 | कायस्थ                     |
| 43 | कादर                       |
| 44 | कोरकू                      |
| 45 | कोस्ता                     |
| 46 | कोछ                        |
| 47 | कोरा                       |
| 48 | कानू                       |
| 49 | कागजी                      |
| 50 | कसाब (कसाई) (मुस्लिम)      |
| 51 | कसौधन                      |
| 52 | कसेरा (बनिया)              |
| 53 | कुंजरा (मुस्लिम)           |
| 54 | कुर्मी                     |
| 55 | कुर्मी (महतो)              |
| 56 | कुशवाहा (कोईरी)            |
| 57 | कुलहैया                    |
| 58 | कैथल वैश्य                 |
| 59 | केशरवानी (बनिया)           |
| 60 | केवर्ट                     |
| 61 | केवट (कउट)                 |
| 62 | कलाल (बनिया)               |
| 63 | कलवार (बनिया)              |
| 64 | कलन्दर                     |
| 65 | मझवार                      |
| 66 | मलिक (मुस्लिम)             |
| 67 | मल्लिक                     |
| 68 | मायरा (बनिया)              |
| 69 | मांगर                      |
| 70 | माहुरीवैश्य (बंगाली बनिया) |
| 71 | मारकन्डे                   |
| 72 | मोमिन (मुस्लिम)            |
| 73 | मोरियारी                   |
| 74 | मौलिक                      |
| 75 | मोरशिकार (मुस्लिम)         |
| 76 | मोदक (बनिया)               |
| 77 | मोदी (बनिया)               |
| 78 | मोगल                       |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 79  | माली (मालाकार)      |
| 80  | मडरिया (मुस्लिम)    |
| 81  | मदार                |
| 82  | मदार (मुस्लिम)      |
| 83  | मदारी (मुस्लिम)     |
| 84  | मुकेरी (मुस्लिम)    |
| 85  | मेहर (यादव)         |
| 86  | मेहतर (मुस्लिम)     |
| 87  | मलार (मालहोर)       |
| 88  | मल्लाह              |
| 89  | बिन्द               |
| 90  | मिरियासीन (मुस्लिम) |
| 91  | पिंगानिया           |
| 92  | शिवहरी              |
| 93  | सिन्दुरिया बनिया    |
| 94  | दिवान (मुस्लिम)     |
| 95  | वियाहुत कलवार       |
| 96  | तियर                |
| 97  | टिकुलहार            |
| 98  | हलुवाई              |
| 99  | भंगी (मुस्लिम)      |
| 100 | भटियारा (मुस्लिम)   |
| 101 | भार                 |
| 102 | भास्कर              |
| 103 | भाट (मुस्लिम)       |
| 104 | भाट (हिन्दू)        |
| 105 | भुईयार              |
| 106 | भट (हिन्दू)         |
| 107 | भूमिहार             |
| 108 | पठान                |
| 109 | पमरिया (मुस्लिम)    |
| 110 | पहिरा               |
| 111 | परथा                |
| 112 | पाण्डी              |
| 113 | पाल (भेड़िहार)      |
| 114 | पाल (गडेरी)         |
| 115 | पैरघा (परिहार)      |
| 116 | पनसारी (बनिया)      |
| 117 | पटवा                |
| 118 | प्रधान              |
| 119 | प्रजापति (कुम्हार)  |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 120 | रंगरेज (मुस्लिम)                    |
| 121 | रंगवा                               |
| 122 | राईन (मुस्लिम)                      |
| 123 | रौतिया                              |
| 124 | रोनियार (बनिया)                     |
| 125 | राजधोबी                             |
| 126 | राजभर                               |
| 127 | राजभट (हिन्दू)                      |
| 128 | राजपूत                              |
| 129 | राजवंशी (देसिया / देशिया या पोलिया) |
| 130 | शेरशाहबादी                          |
| 131 | संतराश                              |
| 132 | साई (मुस्लिम)                       |
| 133 | सामदी वैश्य                         |
| 134 | सोयर                                |
| 135 | सोनार                               |
| 136 | सौटा (सोता)                         |
| 137 | सदगोप (यादव)                        |
| 138 | सुकियार                             |
| 139 | सुरजापुरी (मुस्लिम)                 |
| 140 | सैयद                                |
| 141 | सेखडा                               |
| 142 | सैथवार                              |
| 143 | सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)           |
| 144 | सन्यासी                             |
| 145 | सूढी (बनिया)                        |
| 146 | सूत्रधार                            |
| 147 | उफाली (मुस्लिम)                     |
| 148 | दांगी                               |
| 149 | दोनवार                              |
| 150 | देवहार                              |
| 151 | दर्जी (मुस्लिम)                     |
| 152 | वारी                                |
| 153 | वैश्य पोददार                        |
| 154 | वनपर                                |
| 155 | चीक (मुस्लिम)                       |
| 156 | चपोता                               |
| 157 | चांय                                |
| 158 | चुड़ीहार (मुस्लिम)                  |
| 159 | चनउ                                 |
| 160 | चन्द्रबंशी (कमकर)                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 161 | चन्द्रवंशी (कहार)       |
| 162 | क्षेत्रीय               |
| 163 | फकीर (मुस्लिम)          |
| 164 | तमरिया                  |
| 165 | तमोली (चौरसिया)         |
| 166 | तुरहा                   |
| 167 | तेली                    |
| 168 | जति                     |
| 169 | जोगी (जुगी)             |
| 170 | जागा                    |
| 171 | जदुपतिया                |
| 172 | जुलाहा (अंसारी)         |
| 173 | जट (हिन्दू)             |
| 174 | नाई                     |
| 175 | नामशुद्र                |
| 176 | नोनिया                  |
| 177 | नागर                    |
| 178 | नालबंद (मुस्लिम)        |
| 179 | नट (मुस्लिम)            |
| 180 | अघोरी                   |
| 181 | अबदल                    |
| 182 | अमात                    |
| 183 | अथीत                    |
| 184 | अतिथ                    |
| 185 | अहीर (यादव)             |
| 186 | अवध बनिया               |
| 187 | अवधबनिया (बंगाली बनिया) |
| 188 | अग्रहरीवैश्य            |
| 189 | गंधबनिक                 |
| 190 | गंधर्व                  |
| 191 | गंगई (गणेश)             |
| 192 | गंगोता                  |
| 193 | गोरा (यादव)             |
| 194 | गोसाई                   |
| 195 | गोस्यामी                |
| 196 | गोड़ी (छावी)            |
| 197 | गोलदार                  |
| 198 | गदरी                    |
| 199 | गदहेड़ी (मुस्लिम)       |
| 200 | ग्वाला (यादव)           |
| 201 | गुलगुलिया               |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 202 | लक्ष्मी रारायण गोला (यादव) |
| 203 | लहड़ी                      |
| 204 | लोहार                      |
| 205 | लालबेगीया (मुस्लिम)        |
| 206 | तांती (ततवा)               |
| 207 | नझ्या सुरहिया              |
| 208 | सुरहिया                    |
| 209 | जुलाहा                     |
| 210 | अंसारी                     |
| 211 | चुड़ीहार                   |
| 212 | अदरख्वी                    |
| 213 | छीपी                       |
| 214 | तिली                       |
| 215 | परिहार                     |
| 216 | सामरी वैश्य                |
| 217 | जट (मुस्लिम)               |
| 218 | बांतर                      |
| 219 | बौरी                       |
| 220 | भोगता                      |
| 221 | भुझ्या                     |
| 222 | चमार                       |
| 223 | मोची                       |
| 224 | चौपाल                      |
| 225 | डावगर                      |
| 226 | धोबी                       |
| 227 | डॉम, धनगढ                  |
| 228 | दुसाध धारी                 |
| 229 | घासी                       |
| 230 | हलालखोर                    |
| 231 | हरि                        |
| 232 | कंजर                       |
| 233 | कुररियार                   |
| 234 | मुशहर                      |
| 235 | नट                         |
| 236 | पान                        |
| 237 | पासी                       |
| 238 | रजवार                      |
| 239 | तुरी                       |
| 240 | संथाल                      |
| 241 | खारिया                     |
| 242 | असुर                       |

|     |                |
|-----|----------------|
| 243 | बैयगा          |
| 244 | बंजारा         |
| 245 | बथुडी          |
| 246 | बेडिया         |
| 247 | भूमिज          |
| 248 | बिंझिया        |
| 249 | बिरहोर         |
| 250 | बिरजिया        |
| 251 | चेरो           |
| 252 | चीक बराईक      |
| 253 | गोंड           |
| 254 | गोड़ाइत        |
| 255 | हो             |
| 256 | करमली          |
| 257 | खड़िया         |
| 258 | खरवार          |
| 259 | खोंड           |
| 260 | किसान          |
| 261 | कोरा           |
| 262 | कोरवा          |
| 263 | लोहरा          |
| 264 | महली           |
| 265 | माल पहड़िया    |
| 266 | मुंडा          |
| 267 | ओराँव          |
| 268 | परहिया         |
| 269 | सौरिया पहड़िया |
| 270 | सावर           |
| 271 | नुनिया         |
| 272 | धरही           |
| 273 | मेहतर          |
| 274 | भंगी           |
| 275 | स्वामी         |
| 276 | स्वासी         |
| 277 | लोहारा         |
| 278 | लालबेगी        |



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह ऐट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदार्थ के देख रख में संपत्र हो रहा है।

|                                                                                       |                                            |                          |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| ज़िला : शेरपुरा 26                                                                    | अंचल : घाटकुम्भा 1                         | मीजा : Gurera            | हल्का : 1    | थाना नं० : 91 |
| क्र.संख्या (1 से 8) अन्य हिस्सेदार हैं? चौहड़ी (क्र.संख्या-9-11) क्र.संख्या-12 से आगे |                                            |                          |              |               |
| नया खेसरा सं० *                                                                       | Ref Khesra No                              | धारण का प्रकार *         |              |               |
| रेपत का नाम *                                                                         | पिता का नाम                                | ~~धारण का प्रकार चुनें~~ |              |               |
| आधार नं०                                                                              | रेपत का नाम अंग्रेजी में<br>आधार के अनुसार |                          |              |               |
| पता *                                                                                 | Address Line 1<br>Address Line 1           |                          |              |               |
| जाति                                                                                  | ~~ जाति चुनें ~~                           | Gender                   | -Select-     |               |
| एकड़                                                                                  | डेसीमल                                     | मोबाइल नं०               |              |               |
| रकवा *                                                                                |                                            |                          |              |               |
| <b>Save</b>                                                                           |                                            | <b>Next &gt;</b>         |              |               |
| <b>New Entry</b>                                                                      | <b>Tab 1</b>                               | <b>Tab 2</b>             | <b>Tab 3</b> | <b>Tab 4</b>  |

## 11. नया खेसरा संख्या - प्रपत्र-6 के कॉलम सं० 4 से नया खेसरा संख्या लिखें।

(Ref Khesra No. -यदि आपके खाता में 1 से ज्यादा खेसरा है और आपको उस खेसरे की जानकारी को दुसरे खेसरे की जानकारी में प्रविष्टि करनी है, तो Ref Khesra No. में आपके द्वारा उस खाता के पहले खेसरा न० की एंट्री आवश्यक है, इससे आपके सामने एंट्री किए हुए खेसरा न० की जानकारी स्वतः प्रविष्ट हो जाएगी। कभी भी Ref Khesra No. में पहले खेसरा न० की ही एंट्री करें।)

12. धारण का प्रकार(Holding Type) - प्रपत्र-6 से धारण का प्रकार को दी हुई सूची सेचयनित करें। इसकी डाटा एंट्री कॉलम सं ० २ के आधार पर की जाएगी।

- इस कॉलम में अगर रैयत का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-रैयती (रैयती) चुनें।
- इस कॉलम में अगर गैरमजरूआ खास/मालिक का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-अनाबाद बिहार सरकार (गैरमजरूआ खास/मालिक) चुनें।
- इस कॉलम में अगर गैरमजरूआ आम का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-अनाबाद सर्वसाधारण (गैरमजरूआ आम) चुनें।
- इस कॉलम में अगर खास महाल का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-खास महाल चुनें।
- इस कॉलम में अगर बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि चुनें।
- इस कॉलम में अगर गैरमजरूआ खास/मालिक का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-अनाबाद बिहार सरकार (गैरमजरूआ खास/मालिक) चुनें।
- इस कॉलम में अगर कैसरे हिन्द का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-कैसरे हिन्द (भारत सरकार) या कैसरे हिन्द (बिहार सरकार) चुनें।

13. रैयत का नाम - प्रपत्र- 6 के स्तम्भ - 2 से रैयत का नाम प्रविष्ट करें।

14. पिता/पति का नाम - पिता/पति को Dropdown सूची से चुनें उसके उपरांत ही प्रपत्र-6 के स्तम्भ - 2 से पिता/पति का नाम प्रविष्ट करें।
15. आधार नंबर- प्रपत्र- 6 से आधार नंबर प्रविष्ट करें।  
(प्रविष्ट किए गए आधार नंबर की दुबारा जांच कर लें)
16. रैयत का नाम अंग्रेज़ी में - प्रपत्र-6 से रैयत का नाम अंग्रेज़ी में (आधार कार्ड में प्रविष्ट के अनुसार) प्रविष्ट करें।  
(आधार कार्ड पर अंकित अंग्रेजी अक्षरों (Capital English Alphabets) से ही नाम प्रविष्ट करना है।)
17. पता - प्रपत्र-6 (हार्ड प्रति) के स्तम्भ - 2 से रैयत का पता प्रविष्ट करें।
18. जाति - प्रपत्र-6 (हार्ड प्रति) से जाति को दी हुई सूची से चयनित करें।
19. Gender - प्रपत्र-6 (हार्ड प्रति) से Gender दी हुई सूची से चयनित करें।
20. रक्बा - (System में English भाषा चयनित करें) एकड़ एवं डेसीमल प्रपत्र-6 के कॉलम 7 एवं 8 के अनुसार लिखें।
21. मोबाइल नं०- रैयत का मोबाइल नं० प्रविष्ट करें।

## प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बनोवस्त पदार्थ के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

| जिला : शेरूपगढ़ 26                                                                           | अधिकारी : शाटकुसुमभा 1         | मौजा : Gurera                               | हलांका : 1  | पथना नं० : 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|--|--|---|----|------|------|-----|---|----|------|------|-----|---|---|------|------|-----|--|--|--|------|--|
| <b>क्र.संख्या (1 से 8) अन्य हिस्सेदार हैं? चौहड़ी (क्र.संख्या-9-11) क्र.संख्या-12 से आगे</b> |                                |                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| नया खेसरा सं० *                                                                              | 345                            | Ref Khesra No                               |             | धारण का प्रकार *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रैयती (रेयती) ▾ |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| रैयत का नाम *                                                                                | राम कुमार                      | पिता का नाम ▾                               | श्याम कुमार |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| आधार नं०                                                                                     | 454545454545                   | रैयत का नाम अंग्रेजी में<br>आधार के जन्मसार | RAM KUMAR   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| पता *                                                                                        | पाटकुसुमभा 1<br>Address Line 1 |                                             |             | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">इम. सं०</th> <th style="width: 5%;">पुराना खाता सं०</th> <th style="width: 5%;">पुराना खेसरा सं०</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11</td> <td>1121</td> <td>Edit</td> <td>Del</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11</td> <td>1125</td> <td>Edit</td> <td>Del</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> <td>1200</td> <td>Edit</td> <td>Del</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #6B8E23; color: white;">जोड़</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                 | इम. सं० | पुराना खाता सं० | पुराना खेसरा सं० |  |  | 1 | 11 | 1121 | Edit | Del | 2 | 11 | 1125 | Edit | Del | 3 | 0 | 1200 | Edit | Del |  |  |  | जोड़ |  |
| इम. सं०                                                                                      | पुराना खाता सं०                | पुराना खेसरा सं०                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| 1                                                                                            | 11                             | 1121                                        | Edit        | Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| 2                                                                                            | 11                             | 1125                                        | Edit        | Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| 3                                                                                            | 0                              | 1200                                        | Edit        | Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
|                                                                                              |                                |                                             | जोड़        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| जाति                                                                                         | सोनार                          | Gender                                      | Male        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| एकड़                                                                                         | डेसीमत                         | मोबाइल नं०                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| रकवा *                                                                                       | 1                              | 33                                          | 9898989898  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |
| <b>Save</b>                                                                                  |                                | <b>Next &gt;</b>                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                 |                  |  |  |   |    |      |      |     |   |    |      |      |     |   |   |      |      |     |  |  |  |      |  |

New Entry
Tab 1
Tab 2
Tab 3
Tab 4

22. पुराना खाता संख्या और पुराना खेसरा संख्या लिखें - यदि 1 से ज्यादा पुराना खेसरा संख्या की जानकारी है तो “जोड़” बटन पर क्लिक करें। खाता एवं खेसरा कॉलम में एक ही जानकारी प्रविष्ट करें। ज्यादा खेसरा की जानकारी होने पर “जोड़” बटन पर क्लिक करें। “जोड़” बटन पर क्लिक करने के बाद नया Row आएगा जिसमें दूसरे खेसरे की जानकारी की प्रविष्टि करनी है।

किसी भी परिस्थिति में खेसरा या खाता में 2 जानकारी की प्रविष्टि नहीं करनी है।

**महत्वपूर्ण जानकारी - पुराना खेसरा एक हो या एक से ज्यादा दोनों परिस्थिति में “जोड़ें” बटन पर क्लिक करें।**

(जिस नये खेसरे की आप प्रविष्टि कर रहे हैं, वो पूर्व में जिस खाता के खेसरा/खेसरों से मिलकर बना है उसकी एंट्री करें। यदि किसी पुराने खेसरे में खाता नंबर जात नहीं है तो उसमे '0' की एंट्री करें। यदि एक खाता में दो पुराने खेसरों की जानकारी है तो दो row में जानकारी की प्रविष्टि होगी।)

23. “Save” बटन पर क्लिक करें।

“Save” बटन पर क्लिक करने के बाद Tab1 जो अभी लाल रंग में है हरे रंग का हो जाएगा और टिक मार्क हो जाएगा।

“Save होने के बाद Tab 4 के दाहिने तरफ 14 अंकों का एक Unique नंबर(26010024000065) दिखेगा जिसे रैयत को दिया जाना आवश्यक है।”

|        |             |                  |            |
|--------|-------------|------------------|------------|
| जाति   | सोनार       | Gender           | Male       |
| एकड़   | डेसीमल      | मोबाइल नं०       |            |
| रकवा * | 1           | 33               | 9898989898 |
|        | <b>Save</b> | <b>Next &gt;</b> |            |

New Entry      Tab 1 ✓      Tab 2      Tab 3      Tab 4      26010024000065

24. “Next” बटन पर क्लिक करें।

“Next” बटन पर क्लिक करते ही दुसरे Tab page “अन्य हिस्सेदार हैं” में जाएंगे।

The screenshot shows a web-based application for land survey management. At the top, there is a logo of the Government of Bihar and the text "Directorate of Land Records & Survey, Government of Bihar". To the right, it says "Land Survey Management System". Below the header, there is a navigation bar with links: Home, Entry, Update, Delete, Report, and Miscellaneous. On the far right, a user profile is shown with the name "SUBODH KUMAR". The main content area has a dark blue header with the text "प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)" and a note below it stating "यह एक AKANKSHA KUMARI, सहायक व-दोकान पदार्थ के देखरेख में संपत्र हो रहा है". The main form contains fields for "जिला: शेखपुरा 26", "अंचल: घाटकुम्हभा 1", "मौजा: Gurera", "हलका: 1", and "थाना नं.: 91". Below these, there are dropdown menus for "क्र.संख्या (1 से 8)", "अन्य हिस्सेदार हैं?", "चौहानी (क्र.संख्या-9-11)", and "क्र.संख्या-12 से आगे". A question "अन्य हिस्सेदार हैं?" has a dropdown menu with "नहीं" selected. At the bottom, there are tabs labeled "New Entry", "Tab 1 ✓", "Tab 2", "Tab 3", "Tab 4", and a reference number "26010024000065".

25. अन्य हिस्सेदार हैं?- यदि आप जिस नये खेसरे की एंट्री कर रहे हैं उसमे अन्य हिस्सेदार है तो “हाँ” को चयनित करें। हाँ करने के बाद पहले Row में पिता/पति का नाम, जाति, एवं पता पहले रैयत में की गई प्रविष्टि के अनुसार सॉफ्टवेयर स्वतः ले लेगा, आवश्यकता अनुसार उक्त जानकारी में बदलाव किया जा सकता है।


प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )  
यह एक्टी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोबस्तु पदार्थ के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला : शेखपुरा 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अंचल : घाटकुसुमभा 1                                                                        | मोजा : Gurera                                                                            | हलका : 1                                                                                 | थाना नं० : 91                                                                            |
| क्र.संखा (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहानी (क्र.संखा-9 -11)    क्र.संखा- 12 से आगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| अन्य हिस्सेदार हैं? <input style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;" type="button" value="हैं"/><br>रेयत का नाम * <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-right: 10px;" type="text"/> पिता का नाम <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-right: 10px;" type="text"/> श्याम कुमार <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-right: 10px;" type="text"/> जाति <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-right: 10px;" type="text"/> सोनार <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-right: 10px;" type="text"/><br>पिता <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-right: 10px;" type="text"/> चाटकुसुमभा <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-right: 10px;" type="text"/> जोड़े <input style="border: 1px solid black; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px;" type="button" value="Next &gt;"/> |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| <input style="border: 1px solid black; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px;" type="button" value="New Entry"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;" type="button" value="Tab 1 ✓"/> | <input style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;" type="button" value="Tab 2"/> | <input style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;" type="button" value="Tab 3"/> | <input style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;" type="button" value="Tab 4"/> |
| 2601002400065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |

26. हिस्सेदार की जानकारी लिखें (रेयत का नाम , पिता/पति का नाम , जाति, एवं पता)|

27. सारी जानकारी भरने के बाद “जोड़े” बटन पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद पॉपअप मैसेज आएगा। पॉपअप मैसेज में“OK” बटन पर क्लिक करें।



यदि 1 से ज्यादा हिस्सेदार हैं तो “जोड़े” बटन पर क्लिक करके जितने हिस्सेदार हैं, सबकी जानकारी एक-एक करके प्रविष्ट करें। हिस्सेदार की जानकारी में किसी भी प्रकार के बदलाव करने के लिए उक्त हिस्सेदार के row में“Edit” बटन पर क्लिक करें। Save होने के बाद Tab 2 जो अभी लाल रंग में है हरे रंग का हो जाएगा और टिक मार्क हो जाएगा।

हरे रंग होने का तात्पर्य है कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वह सुरक्षित हो गई है।

Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar

Land Survey Management System

Update | Delete | Report | Miscellaneous

SUBODH KUMAR Sheikhpura

### प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26

अंचल : घाटकुसुमभा 1

मांज़ : Gurera

हतका : 1

थाना नं० : 91

क्र.संख्या (1 से 8)

अन्य हिस्सेदार हैं ?

चौहद्दी (क्र.संख्या-9-11) क्र.संख्या-12 से आगे

अन्य हिस्सेदार हैं ?

रेपत का नाम \*

पिता का नाम

रमण कुमार

जाति

शिवहरी

पता घाटकुसुमभा

गली - 1

| SNo. | Name  | Flag | Fathernm    | Add1       | Add2       |  |  |
|------|-------|------|-------------|------------|------------|--|--|
| 1    | रमेश  | F    | श्याम कुमार | घाटकुसुमभा | घाटकुसुमभा |  |  |
| 2    | सुमन  | H    | श्याम कुमार | घाटकुसुमभा | घाटकुसुमभा |  |  |
| 3    | सुदीप | F    | रमण कुमार   | घाटकुसुमभा | घाटकुसुमभा |  |  |

New Entry

Tab 1 ✓

Tab 2 ✓

Tab 3

Tab 4

26010024000065

28. “Next” बटन पर क्लिक करें।

29. क्लिक करने के पश्चात तीसरा Tab पेज “चौहद्दी (क्र० संख्या 9-11) खुलेगा।

| Update | Delete | Report | Miscellaneous



### प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

यह एटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदार्थ के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26

अंचल : घाटकुसुमभा 1

मौजा : Gurera

हलका : 1

क्र.संख्या (1 से 8)

अन्य हिस्सेदार हैं?

चौहदी (क्र.संख्या-9-11)

क्र.संख्या- 12 से आगे

| चौहदी             | Ref. Khesra No.                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| उत्तर *           |                                           |
| दक्षिण *          |                                           |
| पूर्व *           |                                           |
| पश्चिम *          |                                           |
| भौतिक विवरण चुनें | <input type="button" value="चौहदी भरें"/> |
| भूमि का वर्गीकरण  | <input type="button" value="ADD"/>        |

30. चौहदी -प्रपत्र -6 (हार्ड प्रति) में चौहदी की जानकारी कॉलम 9 में दी गई है, उसे प्रविष्ट करें।

(यदि आपको चौहदी के खेसरा संख्या की जानकारी है तो उसके नये खेसरा संख्या को Ref. Khesra No. में प्रविष्ट करें एवं उसके ऊपरांत “चौहदी भरें” पर क्लिक करें।

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

यह एट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

|                                                                                                  |                       |                                    |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| ज़िला : शेखपुरा 26                                                                               | अंचल : घाटकुसुमभा 1   | मौजा : Gurera                      | हलाका : 1 | थाना नॉ : 91 |
| क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहड़ी (क्र.संख्या-9 -11)    क्र.संख्या- 12 से आगे |                       |                                    |           |              |
| उत्तर *                                                                                          | चौहड़ी<br>साकेत कुमार | Ref. Khesra No.                    | 33        |              |
| दाक्षिण *                                                                                        | पारसनाथ सिंह          |                                    | 34        |              |
| पूर्व *                                                                                          | परसुराम राम           |                                    | 44        |              |
| पश्चिम *                                                                                         | साकेत कुमार           |                                    | 33        | चौहड़ी भरे   |
| भौतिक विवरण चुनें                                                                                | भौतिक विवरण चुनें~~~  | <input type="button" value="ADD"/> |           |              |


31. भौतिक विवरण चुनें एवं उसके विवरण का प्रकार चुनें, उसके उपरांत “ADD” बटन पर क्लिक करें।

**महत्वपूर्ण जानकारी -भौतिक विवरण एक हो तो भी उसे select करके “Add” बटन पर क्लिक करें।**

(भौतिक विवरण में 1 या 1 से अधिक प्रविष्टि हो सकती है। भौतिक विवरण की अधिकतम 4 प्रविष्टि संभव है। प्रत्येक प्रविष्टि को संधारित करने के लिए “ADD” बटन पर क्लिक करें।)

| उत्तर *           | पारसनाथ सिंह     | Ref. Khesra No.                    | 33                     |            |
|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| पूर्व *           | परसुराम राम      |                                    | 44                     |            |
| पश्चिम *          | साकेत कुमार      |                                    | 33                     | चौहड़ी भरे |
| भौतिक विवरण चुनें | शैक्षणिक संस्थान | <input type="button" value="ADD"/> | मध्य विद्यालय (सरकारी) |            |
| Cat ID            | Cat Name         | Sub Cat. ID                        | Sub Cat. Name          |            |
| 5                 | संचार तंत्र      | 32                                 | टेलिफोन कार्यालय       | Delete     |

“ADD” बटन पर क्लिक करने के पश्चात पॉपअप मैसेज आएगा।  
पॉपअप मैसेज में “OK” बटन पर क्लिक करें।



32. भूमि का वर्गीकरण चुनें।

**महत्वपूर्ण जानकारी -भूमि का वर्गीकरण एक हो तो भी उसे select करके “Add” बटन पर क्लिक करें।**

(भूमि का वर्गीकरण में सूची से अधिकतम 2 प्रविष्टि हो सकती है, प्रत्येक प्रविष्टि को संधारित करने के लिए “ADD” बटन पर क्लिक करें।)

“ADD” बटन पर क्लिक करने के पश्चात पॉपअप मैसेज आएगा।  
पॉपअप मैसेज में “OK” बटन पर क्लिक करें।

| परिवर्तन         | संख्या | शैक्षणिक संस्थान | परिवर्तन |
|------------------|--------|------------------|----------|
| भूमि का वर्गीकरण | 12     | ज्ञाड़ी          | 32       |
|                  |        | शैक्षणिक संस्थान | 81       |

| भूमि का वर्गीकरण | ज्ञाड़ी |           |        |
|------------------|---------|-----------|--------|
|                  | ID      | Name      |        |
|                  | 4       | ज्ञाड़ी   | Delete |
|                  | 1       | कृषि धनहर | Delete |

Dept of Land Records & Survey | Directorate of Land Records & Survey | Directorate of Land Records & Survey | Directorate of Land Records & Survey

Not secure | dlrs.bihar.gov.in/Survey/BS/PrapatraEntry/Prapatra6a.aspx?ids=1&trid=trid&mza=24

Apps Note for Cryptogra... Data Encryption Sta... Note for Crypto

**Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar**

dlrs.bihar.gov.in says  
One Land Type saved successfully.

OK

| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

### 33. “Save” बटन पर क्लिक करें।

Save होने के बाद Tab3 जो अभी लाल रंग में है हरे रंग का हो जाएगा और टिक मार्क हो जाएगा। हरे रंग होने का तात्पर्य है कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वह सुरक्षित हो गई है।

### 34. “Next” बटन पर क्लिक करें।

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )  
यह ऐटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बदौवस्त पदार्थ के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

| पिता: शेखपुरा 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अंचल: घाटकुमुम्भा 1 | माजा: Gurera | हलका: 1 | थाना नं.: 91 |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|--------------|--------|-------|--|--|------|--|--|-----|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| क्र.संख्या (1 से 8) अग्नि हिस्सेदार हैं? चौहड़ी (क्र.संख्या-9-11) क्र.संख्या-12 से आगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |              |         |              |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| फसल के अंतर्गत<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>रकबा</th> <th>एकड़</th> <th>डेसीमल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भद्दे</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अगही</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>रबी</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अग्नि फसल</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कृषि योग्य</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कृषि हेतु अयोग्य</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                     |              | रकबा    | एकड़         | डेसीमल | भद्दे |  |  | अगही |  |  | रबी |  |  | अग्नि फसल |  |  | कृषि योग्य |  |  | कृषि हेतु अयोग्य |  |  | सेस को छोड़कर लगान<br><input type="text"/><br>नवैयत * ~नवैयत चुनें~ ADD<br>वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप<br><input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> परती <input type="checkbox"/> आवासीय <input type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> औद्योगिक/अन्य<br>पार्सल यूनिक<br>यादशत पंजी की क्रम संख्या<br>अभ्युक्ति |  |
| रकबा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एकड़                | डेसीमल       |         |              |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| भद्दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |         |              |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| अगही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |         |              |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| रबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |         |              |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| अग्नि फसल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |         |              |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| कृषि योग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |         |              |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| कृषि हेतु अयोग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |         |              |        |       |  |  |      |  |  |     |  |  |           |  |  |            |  |  |                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

### 35. रकबा -फसल के अंतर्गत रकबा की जानकारी यदि प्राप्त है तो (एकड़ एवं डेसीमल) उसकी प्रविष्टि करें।

36. सेस को छोड़कर लगान- यदि सेस को छोड़कर लगान प्रपत्र-6 में उपलब्ध है तो उसकी प्रविष्टि करें।

37. नवैयत - इस कॉलम के आँकडे प्रपत्र-6 के अभियुक्ति कॉलम में लेना अनिवार्य है। नवैयत को दी हुई सूची से चयनित करें।

महत्वपूर्ण जानकारी -नवैयत एक हो तो भी उसे select करके “Add” बटन पर क्लिक करें।

(सूची से न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 3 प्रविष्टि हो सकती है, प्रत्येक प्रविष्टि को संधारित करने के लिए “ADD” बटन पर क्लिक करें।)

“ADD” बटन पर क्लिक करने के पश्चात पॉपअपमैसेज आएगा। पॉपअप मैसेज में “OK” बटन पर क्लिक करें।

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )  
यह एटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बद्दोवत पदां के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

|                                                                                           |                     |               |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| जिला : शेखपुरा 26                                                                         | अंचल : घाटकुसम्भा 1 | मौजा : Gurera | हलका : 1           | थाना नं० : 91         |
| क्र.संखा (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहड़ी (क्र.संखा-9-11)    क्र.संखा- 12 से आगे |                     |               |                    |                       |
| फसत के अंतर्गत                                                                            |                     |               | सेस को छोड़कर लगान |                       |
| रकवा                                                                                      | एकड़                | डेसीमल        | 2                  |                       |
| भर्द्द                                                                                    |                     |               | नवैयत *            | प्रोपिएट बटाईदार      |
| आगहनी                                                                                     |                     |               | ID                 | Name                  |
|                                                                                           |                     |               | 1                  | रघुवीर खतियानी/मारुसी |
|                                                                                           |                     |               |                    | Delete                |

 Apps Note for Cryptogra... Data Encryption Sta... Note for Crypt...  
**Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar**

**dlrs.bihar.gov.in says**  
One Navayet saved successfully.  
**OK**

| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

38. वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप चुनें (1 से अधिक भूमि के उपयोग को चुना जा सकता है)। इस कॉलम के आँकडे अभियुक्ति कॉलम में लेना अनिवार्य है।

39. पार्सल यूनिक - पार्सल यूनिक (Land Use) को दी हुई सूची से चयनित करें।

पार्सल यूनिक को चयनित करने के उपरांत उपसूची (Land Cover) को चयनित करें।

40. यादृश्ट पंजी की क्रम संख्या अंकित करें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रविष्टि है।

41. अभ्युक्ति- प्रपत्र-6 के कॉलम-24 में यदि कोई अभियुक्ति (Remarks) दी गई है तो उसे भी इस कॉलम में भरें। प्रपत्र-6 (हार्ड प्रति) से नवैयत, वर्तमान में भूमि का उपयोग एवं पार्सल यूनिक की सूची से ही सही विकल्प का चयन कर, उसकी प्रविष्टि करें।

अधिकतम 100 शब्द की प्रविष्टि संभव है।

| फसल के अंतर्गत   |                      | सेस को छोड़कर लगान   |
|------------------|----------------------|----------------------|
| रकवा             | एकड़                 | डेसीमल               |
| भद्दी            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| आगही             | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| रबी              | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| अन्य फसल         | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| कृषि धोय         | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| कृषि हेतु अपोग्य | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप

पार्सल यूनिक

यादृश्ट पंजी की क्रम संख्या

अभ्युक्ति

कृषि  परती  आवासीय  व्यावसायिक  औद्योगिक अन्य

आवासीय

पक्का भकान सह मिश्रित उपयोग

122


उ हर्दूर दिअफ इफ्टी हदरएदर

42. “Save” बटन पर क्लिक करें।

|           |  |    |  |
|-----------|--|----|--|
| अर्हा     |  | 30 |  |
| खाली      |  | 70 |  |
| अवधार     |  |    |  |
| कृषियोग्य |  |    |  |

43. OK बटन पर क्लिक करने के बाद मैसेज popup आएगा।

“Saved successfully ”



Save होने के बाद Tab 4 जो अभी लाल रंग में है हरे रंग का हो जाएगा और टिक मार्क हो जाएगा। हरे रंग होने का तात्पर्य है कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वह सुरक्षित हो गई है।

**खेसरा पंजी का प्रपत्र )**  
क बन्दोवस्त पदार्थ के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

| हलका : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | थाना नं० : 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">सेस को छोड़कर लगान</td> <td style="width: 85%; text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>नवैयत *</td> <td style="text-align: right;"><b>घोषित बटाईदार</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;"> <input type="button" value="ADD"/> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Name</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>रेयती/खतियानी/मीरूसी</td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="Delete"/></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/>कृषि <input checked="" type="checkbox"/>परती <input checked="" type="checkbox"/>आवासीय <input checked="" type="checkbox"/>व्यावसायिक <input type="checkbox"/>औधोगिक/अन्य</td> </tr> <tr> <td>पार्सल यूनिक</td> <td style="text-align: right;"><input type="button" value="आवासीय"/></td> </tr> <tr> <td>यादशत पंजी की क्रम संख्या</td> <td style="text-align: right;"><input type="button" value="पङ्क्ता मकान सह मिश्रित उपयोग"/></td> </tr> <tr> <td>अभ्युक्ति</td> <td style="text-align: right;"><input type="button" value="122"/><br/><input type="button" value="उ हउईउ दिअफ इफदी ह्वदरएदर"/></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सेस को छोड़कर लगान                    | 2    | नवैयत * | <b>घोषित बटाईदार</b> |                      | <input type="button" value="ADD"/>    |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Name</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>रेयती/खतियानी/मीरूसी</td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="Delete"/></td> </tr> </tbody> </table> | ID | Name |  | 1 | रेयती/खतियानी/मीरूसी | <input type="button" value="Delete"/> | वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप | <input checked="" type="checkbox"/> कृषि <input checked="" type="checkbox"/> परती <input checked="" type="checkbox"/> आवासीय <input checked="" type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> औधोगिक/अन्य | पार्सल यूनिक | <input type="button" value="आवासीय"/> | यादशत पंजी की क्रम संख्या | <input type="button" value="पङ्क्ता मकान सह मिश्रित उपयोग"/> | अभ्युक्ति | <input type="button" value="122"/><br><input type="button" value="उ हउईउ दिअफ इफदी ह्वदरएदर"/> |
| सेस को छोड़कर लगान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
| नवैयत *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>घोषित बटाईदार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="button" value="ADD"/>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Name</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>रेयती/खतियानी/मीरूसी</td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="Delete"/></td> </tr> </tbody> </table> | ID                                    | Name |         | 1                    | रेयती/खतियानी/मीरूसी | <input type="button" value="Delete"/> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रेयती/खतियानी/मीरूसी                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="button" value="Delete"/> |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
| वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> कृषि <input checked="" type="checkbox"/> परती <input checked="" type="checkbox"/> आवासीय <input checked="" type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> औधोगिक/अन्य                                                                                                |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
| पार्सल यूनिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="button" value="आवासीय"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
| यादशत पंजी की क्रम संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="button" value="पङ्क्ता मकान सह मिश्रित उपयोग"/>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
| अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="button" value="122"/><br><input type="button" value="उ हउईउ दिअफ इफदी ह्वदरएदर"/>                                                                                                                                                                                                                  |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |
| <input type="button" value="Update"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |      |         |                      |                      |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |  |   |                      |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |                           |                                                              |           |                                                                                                |

| Tab 4 ✓ | 26010024000065 |

**“पुनः दूसरे खेसरे की जानकारी इस कॉलम के आँकडे प्रपत्र-6 के अभियुक्ति कॉलम में लेना अनिवार्य है। प्रविष्ट करने के लिए उक्त पेज में नीचे बाईं तरफ “New Entry” बटन पर क्लिक करें।”**

 **Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar**

**Land Survey Management System**

| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous |  **SUBODH KUMAR**

**प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )**  
यह ऐटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदार्थ के देख रेख में संपत्र हो रहा है।

|                                                                                                                                                                                                                                              |                     |               |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|
| ज़िला : शेखपुरा 26                                                                                                                                                                                                                           | अंचल : पाटकुसुमधा 1 | मौजा : Gurera | हलका : 1 | थाना नं० : 91 |
| क्र.संख्या (1 से 8) <input type="button" value="अन्य हिस्सेदार हैं?"/> <input type="button" value="चौहाई (क्र.संख्या-9-11)"/> <input type="button" value="क्र.संख्या-12 से आगे"/><br>अन्य हिस्सेदार हैं? <input type="button" value="नहीं"/> |                     |               |          |               |
| <input type="button" value="New Entry"/> Tab 1 ✓ Tab 2 Tab 3 Tab 4 26010024000065                                                                                                                                                            |                     |               |          |               |

## प्रपत्र - 6 की डाटा प्रविष्टि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

- प्रपत्र-6 में मुख्यतः 6 प्रकार की सूची है, जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए “Miscellaneous” ऑप्शन में Master पर क्लिक करने के पश्चात “Master Report” में देखा जा सकता है।
- सभी छः प्रकार की सूची का प्रिन्ट अपनी सुविधानुसार लिया जा सकता है।
- वर्तमान में भूमि के उपयोग एवं पार्सल यूनीक ( Land Use, Land Cover) की जानकारी प्रपत्र - 6 की अभियुक्ति कॉलम में पूर्व में संधारित करना अनिवार्य है।
- Ref.Khesra No.- कभी भी Ref Khesra No. में पहले खेसरा न० की ही एंट्री करें।
- सभीनंबर के फील्ड में एंट्री सिस्टम के “English” भाषा को चयनित करके ही करें।
- अन्य सभी जानकारी हिंदी भाषा में करें।
- कभी भी किसी प्रपत्र की एंट्री मोबाइल फ़ोन से नहीं करें।
- यदि प्रपत्र-6 की एंट्री में कुछ बदलाव किया जाना है तो, Entry ऑप्शन में प्रपत्र-6 पर क्लिक करें। उसके उपरांत जिस खेसरा नंबर की किसी जानकारी में बदलाव किया जाना है उसे “नया खेसरा संख्या” में अंकित करें।
- सारी जानकारी को एक बार मिलाप कर लें, उसके बाद “Update” बटन पर क्लिक करें।



प्रपत्र ६ (खेतरा पंजी का प्रपत्र )

यह एक AKANKSHA KUMARI, सहायक अन्दोबस्त पदा के देष्ट रेष में संपन्न हो रहा है।

|                                                                                         |                                  |                                        |                                   |                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| ठिक्का : शेषपुरा २६                                                                     | अंचल : ग्रामक्षेत्रमा            | मौज़ा : Gurera                         | क्षेत्रका : १                     | धाना नं. : १     |                          |
| क्र.संख्या ( १ से ४ ) अन्य हिस्सेदार हैं? चौहड़ी (क्र.संख्या-९-११) क्र.संख्या-१२ से आगे |                                  |                                        |                                   |                  |                          |
| नया खेतरा सं० *                                                                         |                                  | Ref Khesra No                          |                                   | धारण का प्रकार * | ~~धारण का प्रकार चुनें~~ |
| खेत का नाम *                                                                            |                                  | खेत का नाम                             |                                   |                  |                          |
| आधार नं०                                                                                |                                  | खेत का नाम अंगठी में<br>आधार के अनुसार |                                   |                  |                          |
| पता *                                                                                   | Address Line 1<br>Address Line 2 |                                        | उमा जुराना चावा सं० उमा खेतरा सं० |                  |                          |
| जाति                                                                                    | ~~जाति चुनें~~                   | Gender                                 | -Select-                          | जोड़े            |                          |
| एकड़                                                                                    | इसीमत                            | मोबाइल नं०                             |                                   |                  |                          |
| रकवा *                                                                                  |                                  |                                        |                                   |                  |                          |
|                                                                                         | Save                             | Next >                                 |                                   |                  |                          |
| New Entry                                                                               |                                  | Tab 1                                  | Tab 2                             | Tab 3            | Tab 4                    |



### प्रपत्र-6 (द्वितीय पंजी का प्रपत्र)

यह पट्टी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोबस्तु पद के देश रेख में संचय हो रहा है।

|                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |           |                |                     |  |            |             |  |      |                |     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|--|------------|-------------|--|------|----------------|-----|--|--|--|--|
| ज़िला : शेषपुरा 26                                                                                                                                                                                                                   | अंचल : घाटकुमारा 1 | ग्राम : Gurera | ख़ाका : 1 | धान नं० : 91   |                     |  |            |             |  |      |                |     |  |  |  |  |
| क्र.संख्या (1 से 8) <b>अन्य हिस्तेदार हैं?</b> चौहारी (क्र.संख्या-9-11) क्र.संख्या-12 से आगे                                                                                                                                         |                    |                |           |                |                     |  |            |             |  |      |                |     |  |  |  |  |
| <table border="1"><tr><td>अन्य हिस्तेदार हैं? </td><td></td></tr><tr><td>रेत का नाम </td><td>पिता का नाम </td><td></td><td>जाति </td><td>~~जाति चुनें~~ </td></tr><tr><td>पता </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                    |                |           |                | अन्य हिस्तेदार हैं? |  | रेत का नाम | पिता का नाम |  | जाति | ~~जाति चुनें~~ | पता |  |  |  |  |
| अन्य हिस्तेदार हैं?                                                                                                                                                                                                                  |                    |                |           |                |                     |  |            |             |  |      |                |     |  |  |  |  |
| रेत का नाम                                                                                                                                                                                                                           | पिता का नाम        |                | जाति      | ~~जाति चुनें~~ |                     |  |            |             |  |      |                |     |  |  |  |  |
| पता                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                |           |                |                     |  |            |             |  |      |                |     |  |  |  |  |
| New Entry                                                                                                                                                                                                                            | Tab 1              | Tab 2          | Tab 3     | Tab 4          |                     |  |            |             |  |      |                |     |  |  |  |  |



### प्रपत्र-६ (खेतर पंजी का प्रपत्र)

यह एट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोबस्तु पदार्थ के देश रेख में संचयन हो रहा है।

|                                                                                                 |                           |                 |            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| जिला : शेषपुरा 26                                                                               | अंचल : घाटकुमुममा ।       | माजा : Gurera   | इवाका : ।  | आगा नं : १।                  |
| क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं? <b>चौहाड़ी (क्र.संख्या १-१)</b> क्र.संख्या-12 से आगे |                           |                 |            |                              |
| चौहाड़ी                                                                                         |                           | Ref. Khesra No. |            |                              |
| उत्तर *                                                                                         |                           |                 |            |                              |
| दक्षिण *                                                                                        |                           |                 |            |                              |
| पूर्व *                                                                                         |                           |                 |            |                              |
| पश्चिम *                                                                                        |                           |                 |            | <b>चौहाड़ी भरे</b>           |
| भौतिक विवरण चूने                                                                                | ~~भौतिक विवरण चूने~~      | <b>▼</b>        | <b>▼</b>   | <b>ADD</b>                   |
| भूमि का वर्गीकरण                                                                                | ~~ भूमि का प्रकार चूने ~~ | <b>▼</b>        | <b>ADD</b> | <b>Save</b> <b>Next &gt;</b> |

**New Entry**    **Tab 1**    **Tab 2**    **Tab 3**    **Tab 4**



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एव्ही AKANKSHA KUMARI, सहायक नवद्वारा प्रयोग के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

| विला : शेषपुरा 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अंचल : घाटकुमुमा ।                                                                                                                                                        | मौज़ा : Gurera <input type="button" value="▼"/> | इकाई : ।                             | धान नं : 9।                          |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| क्र.संख्या (1 से 8)      अन्य हिस्तेदार हैं?      चौहटी (क्र.संख्या-9-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | क्र.संख्या-12 से आगे                            |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">फसल के अंतर्गत</th> </tr> <tr> <th>एकाई</th> <th>डेसीमल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                           |                                                 | फसल के अंतर्गत                       |                                      | एकाई | डेसीमल | <input type="text"/> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सेस को छोड़कर बगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>नवैयत :</td> <td><input type="text" value="~~ नवैयत चुनें ~~"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="ADD"/></td> </tr> <tr> <td>दर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप</td> <td><input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> परती <input type="checkbox"/> आवासीय <input type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> और्ध्वांशिक/अन्य</td> </tr> <tr> <td>पारंपरिक यूनिक</td> <td><input type="text" value="~~पारंपरिक यूनिक चुनें~~"/> <input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td>यादात चंजी की क्रम संख्या</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>अभ्युक्ति</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> |  | सेस को छोड़कर बगान | <input type="text"/> | नवैयत : | <input type="text" value="~~ नवैयत चुनें ~~"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="ADD"/> | दर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप | <input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> परती <input type="checkbox"/> आवासीय <input type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> और्ध्वांशिक/अन्य | पारंपरिक यूनिक | <input type="text" value="~~पारंपरिक यूनिक चुनें~~"/> <input type="button" value="▼"/> | यादात चंजी की क्रम संख्या | <input type="text"/> | अभ्युक्ति | <input type="text"/> |
| फसल के अंतर्गत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| एकाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | डेसीमल                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                                                                                                                                      |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                                                                                                                                      |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                                                                                                                                      |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                                                                                                                                      |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                                                                                                                                      |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                                                                                                                                      |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| सेस को छोड़कर बगान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| नवैयत :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="~~ नवैयत चुनें ~~"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="ADD"/>                                                        |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| दर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> परती <input type="checkbox"/> आवासीय <input type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> और्ध्वांशिक/अन्य |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| पारंपरिक यूनिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="~~पारंपरिक यूनिक चुनें~~"/> <input type="button" value="▼"/>                                                                                    |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| यादात चंजी की क्रम संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="text"/>                                                                                                                                                      |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="text"/>                                                                                                                                                      |                                                 |                                      |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | <input type="button" value="Save"/>  |                                      |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
| <input type="button" value="New Entry"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | <input type="button" value="Tab 1"/>            | <input type="button" value="Tab 2"/> | <input type="button" value="Tab 3"/> |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                      | <input type="button" value="Tab 4"/> |      |        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |                      |         |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                        |                           |                      |           |                      |

फॉर्म-6 की इंट्री के पश्चात् इंट्री की संपूर्णता को सत्यापित करने के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा उपरोक्त चारों टैब में सम्मिलित की जानेवाली सूचनाओं के लिए निम्न चेकलिस्ट को आधार बनाकर जाँच कर सकते हैं:-

### **3.5 भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form- 6 की इंट्री का राजस्व ग्रामवार चेकलिस्ट**

|     |                                                                                                |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 01. | क्या भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर मौजा का चयन किया गया है ?                            |  |
| 02. | क्या फॉर्म खुलने पर नये खेसरों की कुल संख्या को भर दिया गया है ?                               |  |
| 03. | क्या मौजा का कुल रकबा अंकित कर दिया गया है ?                                                   |  |
| 04. | क्या ‘इनकी देख—रेख में’ कॉलम में शिविर प्रभारी का नाम अंकित कर दिया गया है ?                   |  |
| 05. | क्या रैयत के लिए नया खेसरा कॉलम— 04 में अंकित किया गया है ?                                    |  |
| 06. | क्या खेसरा संख्या क्षेत्रफल (एकड़—डेसीमल) के साथ अंकित है ?                                    |  |
| 07. | क्या रैयत का नाम, आधार, मोबाईल नं0, पिता / पति का नाम, पता एवं जाति का नाम अंकित किया गया है ? |  |
| 08. | क्या खेसरा के धारण का प्रकार अंकित किया गया है ?                                               |  |
| 09. | क्या खेसरा के अन्य हिस्सेदारों की इंट्री कर ली गई है ?                                         |  |
| 10. | क्या पुराने खाता संख्या एवं पुराने खेसरा संख्या को जोड़ लिया गया है ?                          |  |
| 11. | क्या चौहदीदारों के नाम की इंट्री खेसरा संख्या के संदर्भ के साथ कर ली गई है ?                   |  |
| 12. | क्या खेसरे पर उपलब्ध सभी भौतिक विवरणी की इंट्री कर ली गई है ?                                  |  |
| 13. | क्या खेसरे के विरुद्ध “भूमि के प्रकार” की इंट्री कर ली गई है ?                                 |  |
| 14. | क्या कृषि हेतु योग्य एवं अयोग्य भूमि का विवरण भर लिया गया है ?                                 |  |
| 15. | क्या शेष को छोड़कर लगान की इंट्री कर ली गई है ?                                                |  |
| 16. | क्या खेसरे के विरुद्ध नवैयत की इंट्री कर ली गई है ?                                            |  |
| 17. | यदि खेसरे का एक से अधिक उपयोग है तो इसकी इंट्री कर ली गई है ?                                  |  |
| 18. | क्या प्रत्येक खेसरे के लिए “पार्सल यूनिक” की इंट्री कर ली गई है ?                              |  |
| 19. | क्या प्रत्येक खेसरे के लिए याददाश्त पंजी की क्रम संख्या भर ली गई है ?                          |  |
| 20. | क्या प्रत्येक खेसरे के लिए अभ्युक्ति कॉलम भर लिया गया है ?                                     |  |